



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 8—सितम्बर 14, 2012 (भाद्रपद 17, 1934)

No. 36]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 8—SEPTEMBER 14, 2012 (BHADRA 17, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर 2012

वित्त प्रभाग

सं. 357, दिनांक 16 अगस्त 2012—राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा (1977) की अधिकारी प्रीति मोहंती को रक्षा मंत्रालय में दिनांक 02 जुलाई 2012 के पूर्वाह्न से वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) के पद पर नियुक्त करते हैं।

टी हेनरी फ्रेंकलिन
उप वित्तीय सलाहकार
(स्थापना/मु का)

सेना शाखा

सं. 358, दिनांक 16 अगस्त 2012—राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

नियमित सेना

स्थाई आयोग

निम्नलिखित 97 जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 10+2 टीईएस-18 पाठ्यक्रम के हैं, को 10 दिसम्बर 2011 (पूर्वाह्न) से सेना अनुदेश 3/99,

यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है:—

(आईसी-76178के) शानशाह अली, सिग्नल्स

(आईसी-76179एम) पवन गौतम, इंजीनियर्स

(आईसी-76180एफ) नितीश त्यागी, सिग्नल्स

(आईसी-76181के) मोहन कुमार, इंजीनियर्स

(आईसी-76182एम) संजय सिवाच, इंजीनियर्स

(आईसी-76183पी) प्रशांत पाठक, इंजीनियर्स

(आईसी-76184एक्स) अभय कुमार कर्ण, सिग्नल्स

(आईसी-76185ए) अंकित कुमार, सिग्नल्स

(आईसी-76186एच) दीपक कुमार सिंह, सिग्नल्स

(आईसी-76187एल) ईशान दीक्षित, सिग्नल्स

(आईसी-76188एन) बब्बन सिंह, ईएमई

(आईसी-76189डब्ल्यू) प्रशांत चौधरी, इंजीनियर्स
 (आईसी-76190एल) शानेन्द्र सिंह, ईएमई
 (आईसी-76191एन) सिद्धार्थ जयना, सिग्नल्स
 (आईसी-76192डब्ल्यू) मंजीत सिंह बेन्स, ईएमई
 (आईसी-76193वाई) हर्ष काकराण, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76194एफ) जोगिन्दर सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76195के) अनुराग शुक्ला, एओसी
 (आईसी-76196एम) मनीष बोरा, ईएमई
 (आईसी-76197पी) नरेन्द्र कुमार, सिग्नल्स
 (आईसी-76198एक्स) जयदीप दिलीप पाटिल, इंजीनियर्स
 (आईसी-76199ए) मुकेश कुमार, ईएमई
 (आईसी-76200के) शुभायु चौधरी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76201एम) राजेश उप्रेती, इंजीनियर्स
 (आईसी-76202पी) रोहित सिंह, एसी
 (आईसी-76203एक्स) विष्णु प्रसाद होता, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76204ए) रूपक दास, आर्टी
 (आईसी-76205एच) नवनीत शर्मा, सिग्नल्स
 (आईसी-76206एल) देवदत्त देशपांडे, इंजीनियर्स
 (आईसी-76207एन) शिवम नेगी, एसी
 (आईसी-76208डब्ल्यू) मंजीत कुमार सिंह, ईएमई
 (आईसी-76209वाई) आर राजीव, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76210एन) अभिजीत सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76211डब्ल्यू) हर्ष चन्देल, एएडी
 (आईसी-76212वाई) जैवन्त सिंह ग्रेवाल, इंजीनियर्स
 (आईसी-76213एफ) शेखर, एसी
 (आईसी-76214के) विपलव कुमार राय, ईएमई
 (आईसी-76215एम) सुहास एस कर्णे, आर्टी
 (आईसी-76216पी) सुमित शर्मा, ईएमई
 (आईसी-76217एक्स) प्रशांत कुमार चन्द, इंजीनियर्स
 (आईसी-76218ए) अभिषेक सिंह यादव, ईएमई
 (आईसी-76219एच) विकास गिरी, ईएमई
 (आईसी-76220एक्स) ओएनाम सैमसन सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-76221ए) अभय भानू पण्डित, इंजीनियर्स

(आईसी-76222एच) राहुल नोडियाल, ईएमई
 (आईसी-76223एल) मृत्युंजय कटोच, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76224एन) थोकचोम चिथंसना सिंह, एससी
 (आईसी-76225डब्ल्यू) अनंत कुमार, ईएमई
 (आईसी-76226वाई) अनुप कुमार झा, एसी
 (आईसी-76227एफ) ऋषभ रावत, सिग्नल्स
 (आईसी-76228के) विवेक सिंह राठौर, ईएमई
 (आईसी-76229एम) शाश्वत, एसी
 (आईसी-76230एफ) रंजनी कान्त राय, ईएमई
 (आईसी-76231के) हिमांशु बरनवाल, इंजीनियर्स
 (आईसी-76232एम) वाद्य भूपाल वसंत, इंजीनियर्स
 (आईसी-76233पी) अयाज़ अहमद खान, इंजीनियर्स
 (आईसी-76234एक्स) आशीष कुमार गुप्ता, एएडी
 (आईसी-76235ए) दक्ष कुमार कौशिक, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76236एच) शैलेन्द्र कुमार यादव, सिग्नल्स
 (आईसी-76237एल) शिवमंगल सिंह, ईएमई
 (आईसी-76238एन) अभिनव सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76239डब्ल्यू) शशांक शेखर, इंजीनियर्स
 (आईसी-76240एल) रमेश कुमार, आर्टी
 (आईसी-76241एन) दीपक सरकार, ईएमई
 (आईसी-76242डब्ल्यू) विनीत वी एस, आर्टी
 (आईसी-76243वाई) पंकज कुमार चावला, इंजीनियर्स
 (आईसी-76244एफ) लोकेश कुमार शर्मा, ईएमई
 (आईसी-76245के) देवेन्द्र सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-76246एम) शहबाज दीप विक्रम, सिग्नल्स
 (आईसी-76247पी) प्रशान्त पसवोला, आर्टी
 (आईसी-76248एक्स) अमोल जाधव, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76249ए) अजय लाम्बा, ईएमई
 (आईसी-76250पी) अंकित शर्मा, सिग्नल्स
 (आईसी-76251एक्स) आलोक बिष्ट, आर्टी
 (आईसी-76252ए) गौरव दीपक काले, एएडी
 (आईसी-76253एच) अंकित शर्मा, सिग्नल्स
 (आईसी-76254एल) नरेन्द्र सिंह कोरंगा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-76255एन) अजय दत्तात्रय देशपांडे, इंजीनियर्स
 (आईसी-76256डब्ल्यू) मृणाल भाटिया, सिग्नल्स
 (आईसी-76257वाई) कमल सेन, एसी
 (आईसी-76258एफ) रोहित लिंगवाल, सिग्नल्स
 (आईसी-76259के) कण्णन एम, ईएमई
 (आईसी-76260वाई) प्रकाश बाबू, सिग्नल्स
 (आईसी-76261एफ) अजिन जोस, सिग्नल्स
 (आईसी-76262के) चन्दन सिंह, ईएमई
 (आईसी-76263एम) प्रशान्त कंवर, ईएमई
 (आईसी-76264पी) करन सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-76265एक्स) साहिल शर्मा, सिग्नल्स
 (आईसी-76266ए) अश्वनी कुमार सिंह यादव, सिग्नल्स
 (आईसी-76267एच) गौरव चक्रवर्ती, ईएमई
 (आईसी-76268एल) कोण्डेड मार्क डीसूजा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76269एन) प्रबल प्रताप सिंह, एएससी
 (आईसी-76270एच) मोहित कुमार भारती, इंजीनियर्स
 (आईसी-76271एल) ऋषभ शुक्ला, आर्टी
 (आईसी-76272एन) अंकित श्रीवास्तवा, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76273डब्ल्यू) सुमित रंजन दास, इंजीनियर्स
 (आईसी-76274वाई) अभिनव रतूडी, इंजीनियर्स

निम्नलिखित 01 (एक) जैण्टलमैन कैडेट जो कि 110 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना पाठ्यक्रम के हैं, को 11 दिसम्बर 2010 (पूर्वाह्न) से सेना अनुदेश 105/61, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत लेफ्टिनेन्ट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है

टी-6751 गुरप्रीत सिंह (आईसी-75295एच), एईसी की वरिष्ठता
 टी-6608 रिपुदमन सिंह (आईसी-75294ए) के नीचे

निम्नलिखित 01 (एक) जैण्टलमैन कैडेट जो कि 111 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम के हैं को 11 जून 2011 (पूर्वाह्न) से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत लेफ्टिनेन्ट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है। उन्हें 14 जून 2009 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के अन्तर्गत दो वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है

टी-6884 प्रतीक चक्रवर्ती (आईसी-75710वाई), सिग्नल्स की वरिष्ठता यू-1032एल प्रशांत (आईसी-75709के), एएडी के नीचे

अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

निम्नलिखित 01 (एक) जैण्टलमैन कैडेट जो कि 111 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टीजीसी) के हैं को लेफ्टि के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम

तथा शर्तों के अन्तर्गत (टीजीसी) पाठ्यक्रम वालों को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत हैं अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है:--

टी-6884 प्रतीक चक्रवर्ती, (एसएस-44692ए), सिग्नल्स, 16 अगस्त 2010

जैण्टलमैन कैडेट को दिये गये आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य हैं

नीरज कुमार
 मेजर एएमएस-8बी

सेना शाखा

सं. 359, दिनांक 16 अगस्त 2012--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

निम्नलिखित 129 नियमित पाठ्यक्रम (169 डाईरेक्ट एंट्री, 93 एनडीए तथा 75 ए सी सी) के 337 कैडेटों को सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेन्ट के पद पर दिनांक 10 दिसम्बर 2011 से तथा इनमें से एक जीसी जिसकी आई सी सं. 76001डब्ल्यू बंकिम कटोच है जो आयोग के समय एलएमसी था, सेप-1 होने के बाद 14 दिसम्बर 2011 पूर्वाह्न से, स्थाई रूप से विशेष सेना निदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एंट्री), सेना निदेश 53/78 को विशेष सेना निदेश 4/एस/74 को साथ पढा जाये (एनडीए) तथा सेना निदेश 55/73 (एसीसी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है:--

(आईसी-75828ए) अभिजीत सिंह, एसी

(आईसी-75829एच) अभिषेक चन्द्रा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-75830एक्स) अमित बिज्जवाण, इन्फैन्ट्री

(आईसी-75831ए) विशाल दीप सिंह, एएससी

(आईसी-75832एच) कमल फुलारा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-75833एल) कोठारी करण कीर्ति, इन्फैन्ट्री

(आईसी-75834एन) नितेश कुमार, इंजीनियर्स

(आईसी-75835डब्ल्यू) महाजन अभिजीत चन्द्रकांत, इन्फैन्ट्री

(आईसी-75836वाई) किशोर कुमार वर्मा, आर्टी

(आईसी-75837एफ) रमन दीप सिंह, मैक इन्फैन्ट्री

(आईसी-75838के) विनीत सांगवान, सिग्नल्स

(आईसी-75839एम) शौनक निवर्गी, आर्टी

(आईसी-75840एफ) रौनक राजखोवा, आर्टी	(आईसी-75875एक्स) गुरविन्दर सिंह कपूर, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75841के) मिथुन चटर्जी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75876ए) कुन्दन कुमार, आर्टी
(आईसी-75842एम) सूरज प्रकाश, एओसी	(आईसी-75877एच) विशाल सिंह, आर्टी
(आईसी-75843पी) अंकुश राणा, एसी	(आईसी-75878एल) आशुतोष कुमार, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75844एक्स) सुरेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75879एन) रमन कुमार, एओसी
(आईसी-75845ए) माने गणेश राजाराम, आर्टी	(आईसी-75880एच) अमित यादव, आर्टी
(आईसी-75846एच) अमर कुमार, एएडी	(आईसी-75881एल) हेमंत कानुकोलु, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75847एल) आनन्द प्रकाश, ईएमई	(आईसी-75882एन) रवि कुमार आर्य, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75848एन) अभिनव प्रकाश, आर्टी	(आईसी-75883डब्ल्यू) गौरव चौधरी, मैक इन्फैन्ट्री
(आईसी-75849डब्ल्यू) अभिषेक छिकारा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75884वाई) हरीश माजिला, ईएमई
(आईसी-75850एल) इशफाक रशीद, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75885एफ) राज कुमार थापा, एएससी
(आईसी-75852डब्ल्यू) मनमोहन सिंह बिष्ट, इंजीनियर्स	(आईसी-75886के) सर्वेश कुमार, आर्टी
(आईसी-75853वाई) सबनीस कौशिक जय, आर्टी	(आईसी-75887एम) प्रणव कुमार जोशी, इंजीनियर्स
(आईसी-75854एफ) चन्द्र शेखर नथयाल, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75888पी) जसविन्द्र सिंह सैनी, ईएमई
(आईसी-75855के) अरविन्द ए जी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75889एक्स) शिव प्रताप सिंह पठानिया, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75856एम) एस सजीष, आर्टी	(आईसी-75890एम) अंकुश गुलेरिया, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75857पी) जयरामन सी, आर्टी	(आईसी-75891पी) राजीव कुमार, आर्टी
(आईसी-75858एक्स) सीता बहादुर घाले, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75892एक्स) मलय त्रिपाठी, इन्ट
(आईसी-75859ए) अर्जित वर्मा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75893ए) कुलदीप सिंह छिलर, आर्टी
(आईसी-75860पी) संजीव कुमार परमार, एओसी	(आईसी-75894एच) अर्क किरण देबनाथ, आर्टी
(आईसी-75861एक्स) मायंक सोलंकी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75895एल) दीपक कुमार, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75862ए) महीपाल डांगी, इंजीनियर्स	(आईसी-75896एन) घोलप कृष्णांत चंद्रकांत, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75863एच) दीपक कुमार, इंजीनियर्स	(आईसी-75897डब्ल्यू) हरीश चन्द्र जोशी, आर्टी
(आईसी-75864एल) सुमीत भारद्वाज, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75898वाई) सागर प्रकाश परदेशी, एसी
(आईसी-75865एन) प्रदीप शुक्ल, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75899एफ) प्रशांत राय, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75867वाई) खडक चंद रंजन, एविएशन	(आईसी-75901एन) हर्द्विजय हेमजीत मीतई, आर्टी
(आईसी-75868एफ) नॉमाइथेम सनजीतकुमार सिंह, आर्टी	(आईसी-75902डब्ल्यू) पवन थापा, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75869के) विपिन कुमार, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75903वाई) उपदेश कुमार, आर्टी
(आईसी-75870वाई) जितेश कुमार सिंह, आर्टी	(आईसी-75904एफ) दिग्विजय ठाकुर, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75871एफ) विपिन कुमार, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75905के) देवेन्द्र शर्मा, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75872के) खारे रोहित रमेश, आर्टी	(आईसी-75906एम) विनय कुमार कुशवाहा, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75873एम) एस मगेशकुमार, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75907पी) कमल सिंह बिष्ट, आर्टी
(आईसी-75874पी) देव कुमार, इन्ट	(आईसी-75908एक्स) तपन कुमार तमांग, इन्फैन्ट्री

(आईसी-75909ए) प्रखार धागत, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75944एच) प्रकम्पन कुमार, आर्टी
(आईसी-75910पी) आदित्य सिंह, इंजीनियर्स	(आईसी-75945एल) गौरव कुमार चौधरी, आर्टी
(आईसी-75911एक्स) जी सुधीर कुमार, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75946एन) गौरव कुकरेती, इंजीनियर्स
(आईसी-75912ए) कुलदीप कुमार शर्मा, एससी	(आईसी-75947डब्ल्यू) साकेत पुरी, आर्टी
(आईसी-75913एच) विक्रम सिंह गुसाई, एससी	(आईसी-75948वाई) थोकचोम सनातोन सिंह, आर्टी
(आईसी-75914एल) विनय कुमार, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75949एफ) सुमन देब, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75915एन) सौरभ राज, एससी	(आईसी-75950डब्ल्यू) धीरज पाण्डेय, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75916डब्ल्यू) पंकज कुमार, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75951वाई) दीपक सिंह रघुवंशी, आर्टी
(आईसी-75917वाई) हुनर जैन, एएडी	(आईसी-75952एफ) प्रवेश ठाकुर, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75918एफ) राकेश कुमार वर्मा, आर्टी	(आईसी-75953के) नदिसेट्टी गणेश, आर्टी
(आईसी-75919के) अभिनव श्रीवास्तव, आर्टी	(आईसी-75954एम) नितीश चौधरी, आर्टी
(आईसी-75920वाई) अजय चन्द्रा, सिग्नल्स	(आईसी-75955पी) मोहन सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75921एफ) सयैद इमरान शाह, एविएशन	(आईसी-75956एक्स) टी पुष्पराज, एससी
(आईसी-75922के) अभिषेक सिंह गौतम, आर्टी	(आईसी-75957ए) निशांत बादीगर, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75923एम) शाह मिहिर जयेश, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75958एच) अक्षय विक्रम सिंह मल्ल, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75924पी) अरूणोदय सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75959एल) सुनिल कुमार डी, मैक इन्फैन्ट्री
(आईसी-75925एक्स) विनय पी, एएडी	(आईसी-75961एच) प्रवीण सिवाच, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75926ए) कुलकर्णी परेश प्रल्हाद, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75962एल) अर्पण प्रधान, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75927एच) सौरभ रावत, आर्टी	(आईसी-75963एन) शाहमीर अबिदि, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75928एल) सौरभ गुसाई, एओसी	(आईसी-75964डब्ल्यू) आकाश श्रीमाली, एएडी
(आईसी-75929एन) रोहित कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75965वाई) परीक्षित सिंह राठौड़, आर्टी
(आईसी-75930एच) राजदीप सिंह, एओसी	(आईसी-75966एफ) शाजी के, आर्टी
(आईसी-75932एन) कौशल चन्द, एससी	(आईसी-75967के) रोमी सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75933डब्ल्यू) निखिल विक्रम, एविएशन	(आईसी-75968एम) विपिन कुमार, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75934वाई) जे विजया कुमार, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75969पी) सुरेश सिंह मैहरा, इंजीनियर्स
(आईसी-75936के) राजेश कुमार ठाकुर, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75970के) प्रीतम सिंह रावत, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75937एम) किशोर धनाजी घोरपडे, एओसी	(आईसी-75971एम) विकास बूरा, इन्ट
(आईसी-75938पी) विवेक सिंह बधेल, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75972पी) अंकित सिरौही, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75939एक्स) संजय कुमार गंगवार, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75973एक्स) आशिष देव भारद्वाज, सिग्नल्स
(आईसी-75940एम) पृथ्वीराज सिंह रावल, एसी	(आईसी-75974ए) ध्रुव गुप्ता, एससी
(आईसी-75941पी) कर्मवीर सिंह, ईएमई	(आईसी-75975एच) भुवन चन्द्र जोशी, आर्टी
(आईसी-75942एक्स) गगनदीप सिंह सिद्धू, एससी	(आईसी-75976एल) सुहेल सिंह गिल, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75943ए) आयुष चौहान, सिग्नल्स	(आईसी-75977एन) सुयश श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री

(आईसी-75978डब्ल्यू) तरूण गोयल, आर्टी	(आईसी-76012एच) गगनदीप सिंह, सिग्नल्स
(आईसी-75979वाई) अरूण सामंत, ईएमई	(आईसी-76013एल) सुमित सहगल, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75980एन) कुल भूषण सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76014एन) मुकुल कटोच, आर्टी
(आईसी-75981डब्ल्यू) सत्यशिबा राणासिंह, आर्टी	(आईसी-76015डब्ल्यू) प्रकाश कुमार, एएससी
(आईसी-75982वाई) कुलदीप, ईएमई	(आईसी-76016वाई) कौशिक बिस्वास, एओसी
(आईसी-75983एफ) ईशत सिंह, आर्टी	(आईसी-76017एफ) जोसफ पौल ड, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75984के) भुपिंदर भोला, एसी	(आईसी-76018के) अरूण कुमार के वी, आर्टी
(आईसी-75985एम) रविन्द्र पुन, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76019एम) सतीश मलिक, एओसी
(आईसी-75986पी) गोपीकृष्णा श्रीरामीनेनी, एविएशन	(आईसी-76020एफ) रोहित शुक्ला, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75987एक्स) पोकला रविन्द्रा, आर्टी	(आईसी-76021के) अमनदीप सिंह भिन्डर, एएडी
(आईसी-75988ए) प्रीतम गजानन कांबले, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76022एम) विनीत कुमार मीणा, ईएमई
(आईसी-75989एच) आदित्य राणा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76023पी) गोपीनाथ यू, एएससी
(आईसी-75990एक्स) एस हरदीप सिंह मेहता, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76024एक्स) जयशील जयंत पेंडसे, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75991ए) अभिनव अय्यर, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76025ए) नवजोत ठाकुर, एसी
(आईसी-75992एच) संतोष कुमार यादव, आर्टी	(आईसी-76026एच) हिमांशु गोयल, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75993एल) पुनीत हुड्डा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76027एल) अमृतपाल सिंह ढिल्लो, एविएशन
(आईसी-75994एन) नीरज रत्न, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76028एन) अभिजीत सिंह, आर्टी
(आईसी-75995डब्ल्यू) कालकुंद्री मनीष नारायण, आर्टी	(आईसी-76029डब्ल्यू) बिपन सिंह नेगी, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75997एफ) सूरज सदाशिवन, इंजीनियर्स	(आईसी-76030एल) विवेक काम्बोज, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75998के) कैलाश चन्द्र बचखेती, सिग्नल्स	(आईसी-76031एन) नरेश कुमार, सिग्नल्स
(आईसी-75999एम) विजय प्रकाश सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76032डब्ल्यू) जतीष कुमार एस, आर्टी
(आईसी-76000एन) राहुल पाठक, एसी	(आईसी-76033वाई) रिमेश उनियाल, एएससी
(आईसी-76001डब्ल्यू) बंकिम कटोच, एएससी	(आईसी-76034एफ) जितेश कुमार, आर्टी
(आईसी-76002वाई) सपन कुमार, एएडी	(आईसी-76035के) अखिल देव कौशल, इंजीनियर्स
(आईसी-76003एफ) गौरव सैनी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76036एम) सरवणन आर, इन्फैन्ट्री
(आईसी-76004के) रोमेल वत्स, मैक इन्फैन्ट्री	(आईसी-76037पी) शुभ्रितराज सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-76005एम) लोइयेंगबम जॉन्सन, आर्टी	(आईसी-76038एक्स) आकाश कुमार, आर्टी
(आईसी-76006पी) निरवैर सिंह गिल, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76039ए) अरूण बालचंद्रन, आर्टी
(आईसी-76007एक्स) बालाजी एस, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76040पी) नीरज थापा, इन्फैन्ट्री
(आईसी-76008ए) अविनाश कुमार, आर्टी	(आईसी-76041एक्स) राहुल कुमार, आर्टी
(आईसी-76009एच) प्रणव सेठ, आर्टी	(आईसी-76042ए) राकेश कुमार, एसी
(आईसी-76010एक्स) वसीरेड्डी सचिन शंकर, इन्ट	(आईसी-76043एच) सुबोध राठौड़, इन्फैन्ट्री
(आईसी-76011ए) पेबम रूबिकिशोर सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76044एल) आशीष कुमार, इन्फैन्ट्री

(आईसी-76045एन) विश्वनाथ सिंह राठौड़, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76079एफ) अभिनन्दन शर्मा, आर्टी
(आईसी-76046डब्ल्यू) सुधांशु सचेत, आर्टी	(आईसी-76080डब्ल्यू) अंकित मैनी, इन्फैन्ट्री
(आईसी-76047वाई) प्रताप सिंह पुंडीर, एएससी	(आईसी-76081वाई) बलराज सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-76048एफ) कौशल किशोर यादव, इंजीनियर्स	(आईसी-76082एफ) अवतार सिंह, आर्टी
(आईसी-76049के) सौरभ ध्यानी, आर्टी	(आईसी-76083के) पुष्कर पाण्डेय, आर्टी
(आईसी-76050वाई) अमित कुमार ओझा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76084एम) अभिनव सिंह, एएडी
(आईसी-76051एफ) टी राधवेन्द्र शर्मा, ईएमई	(आईसी-76085पी) मीरा मोहन किशोर, आर्टी
(आईसी-76052के) विजय वर्मा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76086एक्स) तरुण शेखर पाण्डे, एएससी
(आईसी-76053एम) अशोक सिंह, एओसी	(आईसी-76087ए) एम एल थगेराजन, इंजीनियर्स
(आईसी-76054पी) कुनाल मलिक, एएससी	(आईसी-76088एच) अंशुमान जोशी, इन्फैन्ट्री
(आईसी-76055एक्स) मनदीप सिंह, आर्टी	(आईसी-76089एल) पल्ला हरि हरा प्रशांत, आर्टी
(आईसी-76056ए) सौरव कुमार, सिग्नल्स	(आईसी-76090ए) निर्झर एन यादव, सिग्नल्स
(आईसी-76058एल) विश्वास सुब्बा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76092एल) शक्ति सिंह उमराव, एओसी
(आईसी-76059एन) राहुल सिंह, आर्टी	(आईसी-76093एन) सुनिल कुमार पोथाल, एओसी
(आईसी-76060एच) आशीष सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76094डब्ल्यू) भास्कर महान कैरे, एसी
(आईसी-76061एल) विनोद कुमार बि, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76095वाई) जीतेन्द्र दीक्षित, इन्फैन्ट्री
(आईसी-76062एन) हरीश सिंह कुण्डवाल, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76096एफ) अखिलेश कुमार राय, आर्टी
(आईसी-76063डब्ल्यू) दिव्या लाहिरी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76097के) गौरव गुप्ता, आर्टी
(आईसी-76064वाई) द्वारका प्रसाद सिंह, एएससी	(आईसी-76098एम) अंकित अग्रवाल, आर्टी
(आईसी-76065एफ) सोयूज बहादुर के सी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76099पी) अरविन्द बामल, ईएमई
(आईसी-76066के) एस राजा, आर्टी	(आईसी-76100वाई) विष्णु जयराज, एविएशन
(आईसी-76067एम) अविनाश कुमार, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76101एफ) चन्द्र भूषण सिंह, आर्टी
(आईसी-76068पी) खीम सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76103एम) कृष्णन देवाँग, इन्फैन्ट्री
(आईसी-76069एक्स) अभिनव मुद्गल, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76104पी) राहुल भट्ट, इन्फैन्ट्री
(आईसी-76070एम) विक्रम सिंह, एओसी	(आईसी-76105एक्स) सनु के मोन, इंजीनियर्स
(आईसी-76071पी) धर्मवीर, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76106ए) नितिन सी नांबियार, इन्फैन्ट्री
(आईसी-76072एक्स) मुकेश कुमार, इन्ट	(आईसी-76107एच) चौधरी मुकेशभाई दलसंगभाई, आर्टी
(आईसी-76073ए) अंजिष्णु गोस्वामी, एविएशन	(आईसी-76108एल) रविन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-76074एच) रितेश कैंथोला, एएडी	(आईसी-76109एन) मोहित कुमार परगाँई, मैक इन्फैन्ट्री
(आईसी-76075एल) आदित्य कुमार आनन्द, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76110एच) रवि कांत, इन्फैन्ट्री
(आईसी-76076एन) शाश्वत राकेश, एसी	(आईसी-76111एल) अभिषेक, इन्फैन्ट्री
(आईसी-76077डब्ल्यू) देवेन्द्र सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री	(आईसी-76112एन) प्रवीण ध्यानी, इन्फैन्ट्री
(आईसी-76078वाई) दीपक सिंह, इंजीनियर्स	(आईसी-76114वाई) समीर सिंह, आर्टी

(आईसी-76115एफ) मयंक सिवाच, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76116के) अबीर सक्सेना, आर्टी
 (आईसी-76117एम) साहिल बडयाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76118पी) ध्रुवा गौड़, एसी
 (आईसी-76119एक्स) वाद्य परशुराम, आर्टी
 (आईसी-76120एम) सनी राज, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76121पी) अश्विन सूरज, आर्टी
 (आईसी-76122एक्स) अनुपम यादव, एओसी
 (आईसी-76123ए) लकी कुमार, आर्टी
 (आईसी-76124एच) अंकुर कुमार मिश्रा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76125एल) प्रणव कालिया, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76126एन) अमित कुमार तिवारी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76127डब्ल्यू) पदमवीर सिंह, आर्टी
 (आईसी-76128वाई) भानु अग्रवाल, इन्ट
 (आईसी-76129एम) याईखोम्बा चिंगांवम, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76130डब्ल्यू) अशोक दत्त, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76131वाई) सौम्य वर्धन त्रिपाठी, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76132एफ) मनोज कुमार पँवार, आर्टी
 (आईसी-76133के) युद्धवीर सिंह सलाथिया, इंजीनियर्स
 (आईसी-76134एम) अनुपम अत्री, आर्टी
 (आईसी-76135पी) यशवंत सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-76136एक्स) सागर शर्मा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76137ए) प्रान्शु सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76138एच) श्रेय ममगाई, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76139एल) नितिश कुमार सिंह, आर्टी
 (आईसी-76140ए) पी प्रवीण, ईएमई
 (आईसी-76142एल) रथिलेश कुमार, एएडी
 (आईसी-76143एन) करन सहगल, एएससी
 (आईसी-76144डब्ल्यू) मनीष क्षेत्री, आर्टी
 (आईसी-76145वाई) अनीश कुमार शर्मा, आर्टी
 (आईसी-76146एफ) सुकान्त सान्याल, एएससी
 (आईसी-76147के) वरुण कृष्णकुमार, आर्टी
 (आईसी-76148एम) अचल सिंह गौर, इन्फैन्ट्री

(आईसी-76149पी) शर्मा आकाश श्याम, सिग्नल्स
 (आईसी-76150के) अशफाक खान, आर्टी
 (आईसी-76151एम) शुभम चौधरी, आर्टी
 (आईसी-76152पी) शरद चौधरी, आर्टी
 (आईसी-76153एक्स) माधव मूर्ति, एसी
 (आईसी-76154ए) अनुराग सिंह चौहान, आर्टी
 (आईसी-76155एच) राकेश सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76156एल) जीतू विजयन, इंजीनियर्स
 (आईसी-76157एन) राहुल शर्मा, एएडी
 (आईसी-76158डब्ल्यू) युगात कंकण मोहन लास्कर, एएससी
 (आईसी-76160एन) अमित कुमार शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76161डब्ल्यू) विनीत मिश्रा, आर्टी
 (आईसी-76162वाई) आकाश चौहान, ईएमई
 (आईसी-76163एफ) बेंजॉय पी एस, आर्टी
 (आईसी-76164के) शेखर गुप्ता, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76165एम) निखिल ए, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76166पी) अरुण शरत एस, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76167एक्स) अली एम रज़ा, एसी
 (आईसी-76168ए) कुणाल बहल, एओसी
 (आईसी-76169एच) राहुल ऋषि, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76170एक्स) अनुराग शर्मा, आर्टी
 (आईसी-76171ए) मोहम्मद इलियास काठात, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76172एच) अश्वेन्द्र सिंह राघव, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76173एल) केविन एस डेनिस, इंजीनियर्स
 (आईसी-76174एन) थोमस टेफी जोसफ, आर्टी
 (आईसी-76175डब्ल्यू) अभिषेक कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76176वाई) प्रोसेनजित मित्रा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-76177एफ) अनिरुद्ध मंगोत्रा, इन्फैन्ट्री

(अल्प सेवा आयोग)

लै के पद पर

निम्नलिखित चार जैन्टलमेन कैडेट को जो अल्पकालीन सेवा आयोग (तकनीकी)-34 पाठ्यक्रम के हैं, को सेनानुदेश 1/93के नियम तथा शर्तों के अंतर्गत [जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/एजी/पी एस-2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के

साथ पढ़ा जाए। लै के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 19 मार्च 2011 से 10 वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। उन्हें दिनांक 22 मार्च 2009 से विशेष सेनानुदेश 1/एस/94 (संशोधित) के अन्तर्गत तकनीकी योग्यता हेतु दो वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रोन्नति के लिए, दी जाती है:--

जानकी शरण सिंह (एस एस-44494पी) इंजीनियर्स की वरिष्ठता अभिनीत सीकरी (एस एस-44493एम) सिग्नल्स के नीचे, सर्वजीत सिंह (एस एस-44522डब्ल्यू) ई एम ई की वरिष्ठता विनीत जी माज्या (एस एस-44521एन) इन्फैन्ट्री के नीचे, राकेश राउत (एस एस-44532ए) इन्फैन्ट्री की वरिष्ठता मोईनुद्दीन खान (एस एस-44531एक्स) इन्फैन्ट्री के नीचे और रत्निक पाल (एस एस-44552एन) सिग्नल्स की वरिष्ठता सुरेन्द्र एस (एस एस-44551एल) आर्टी के नीचे प्रकाशित किये जायें, जिनके नाम भारत के राजपत्र में दिनांक 31 दिसम्बर 2011 को प्रकाशित हो चुके हैं

निम्नलिखित पाँच जैन्टलमेन कैडेट्स जो अल्प सेवा आयोग-90 पाठ्यक्रम के हैं, ने छः मास का समय जो कि दिनांक 18 सितम्बर 2010 से आरंभ हुआ था, लै के पद पर पूरा कर लिया है, उनको उसी तिथि दिनांक 18 सितम्बर 2010 से 10 वर्ष के लिए लै के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग विशेष सेनानुदेश 3/एस/98, यथासंशोधित, के अंतर्गत [जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए] प्रदान किया जाता है:--

जगदीश रेड्डी सैंगु (एस एस-44091पी) इन्फैन्ट्री, और मानु तनवर (एस एस-44092एक्स) की वरिष्ठता जगदीप सिंह मनहास (एस एस-44090एम) इन्फैन्ट्री के नीचे, रविशंकर एच एन (एस एस-44172पी) इंजीनियर्स की वरिष्ठता पंकज कुमार (एस एस-44171एम) आर्टी के नीचे, अतुल गुप्ता (एस एस-44194एन) जेग की वरिष्ठता विकास कुमार (एस एस-44193एल) इन्फैन्ट्री के नीचे और राजीव बावा (एस एस-44201वाई) एसी की वरिष्ठता नितिन मैथ्यु (एस एस-44200डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री के नीचे, प्रकाशित किये जायें, जिनके नाम भारत के राजपत्र में दिनांक 16 जून 2011 को प्रकाशित हो चुके हैं

राहुल सांगवान
लै कर्नल

सहायक सेना सचिव 8बी

सेना शाखा

सं. 360, दिनांक 17 अगस्त 2012--राष्ट्रपति, थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को उनके 17 मार्च 2012 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेंट के रैंक में 17 मार्च 2012 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :--

(एसएस-42429डब्ल्यू) (आईसी-73206ए) पवन शाह, इंफैं

उपरोक्त अधिकारी की स्थाई कमीशन में निम्नलिखित तारीख होगी :--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 17 मार्च 2007

पदोन्नति के लिये तारीख - 17 अक्टूबर 2007

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को उनके 16 सितम्बर 2011 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेंट के रैंक में 16 सितम्बर 2011 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :--

(एसएस-42194पी) (आईसी-73055एम) अभिमन्यु सिंह सिद्धू, इंफैं

उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 16 सितम्बर 2006

पदोन्नति के लिये तारीख - 16 अप्रैल 2007

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

राष्ट्रपति थल सेना अनुदेश 7 विशेष 66 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 17 मार्च 2012 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टि के रैंक में 17 मार्च 2012 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :--

(एसएस-42381एन) (आईसी-73162एन) जितेन्द्र सिंह राठौर, सिग्नल्स

(एसएस-42389ए) (आईसी-73166के) प्रदीप कुमार, ई एम ई

(एसएस-42390पी) (आईसी-73167एम) तेजबीर सिंह विक, ई एम ई

(एसएस-42391एक्स) (आईसी-73168पी) वुलनाम जमसन पाईते, इंजीनियर्स

(एसएस-42392ए) (आईसी-73169एक्स) अखिल सिंह चाढ़क, इंजीनियर्स

(एसएस-42393एच) (आईसी-73170एम) दंवडे अभिषेक प्रमोद, इंजीनियर्स

(एसएस-42395एन) (आईसी-73172एक्स) अनंत रमेश चारी, इंजीनियर्स

(एसएस-42396डब्ल्यू) (आईसी-73173ए) राकेश शर्मा, ई एम ई

(एसएस-42399के) (आईसी-73175एल) अभिषेक रंजन, इंजीनियर्स

(एसएस-42400एन) (आईसी-73176एन) कामत अभिषेक वसंत, सिग्नल्स

(एसएस-42402वाई) (आईसी-73177डब्ल्यू) अमित ग्रेवाल, सिग्नल्स

(एसएस-42404के) (आईसी-73178वाई) मनमोहन सिंह, ईएमई

(एसएस-42405एम) (आईसी-73179एफ) अमित कुमार कादियान, ईएमई

(एसएस-42406पी) (आईसी-73180डब्ल्यू) शैख अजहर शहनाज, इंजीनियर्स

(एसएस-42410एक्स) (आईसी-73184एम) परवेश कुमार खालिया, इंजीनियर्स

उपरोक्त अधिकारी की स्थाई कमीशन में निम्नलिखित तारीख होगी :--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 20 मार्च 2005

पदोन्नति के लिये तारीख - 20 अप्रैल 2005

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

राष्ट्रपति थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 तथा 7 विशेष 66 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित डब्ल्यू एस इ एस(ओ) अधिकारी को उनके 17 मार्च 2012 से डब्ल्यू एस इ एस(ओ) कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेंट के रैंक में 17 मार्च 2012 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :--

(डब्ल्यूएस-01317एफ) (आईसी-73187ए) नवदीप कौर, ए इ सी

उपरोक्त अधिकारी की स्थाई कमीशन में निम्नलिखित तारीख होगी :--

वेतन वृद्धि के लिये - 17 मार्च 2007

पदोन्नति के लिये - 17 सितम्बर 2007

उपरोक्त डब्ल्यू एस इ एस(ओ) कमीशन अधिकारी तथा उनके परस्पर कमीशन प्राप्त अधिकारियों जिन्हें समान तिथि तथा समान वरिष्ठता

के साथ स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो डब्ल्यू एस इ एस(ओ)/एस एस सी ओ कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है

जितेन्द्र ओहरी

कर्नल

कर्नल सेना सचिव 7

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 361, दिनांक 17 अगस्त 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :--

निम्नलिखित व्यक्तियों का उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से रु. 15,600-39,100/- (पे बैंड-3) + रु. 5,400/- ग्रेड पे रुपये के वेतनमान में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप ए) के पद पर नियुक्त किया जाता है :--

(2009एबी1637) अशोक कुमार, ए डी ई, बेंगलौर, 1 दिसम्बर 2009

(2010एबी1188) असिफ रिज़वान, ए डी ई, बेंगलौर, 28 अक्टूबर 2010

(2009एबी1594) सिद्धांत राज, ए एस एल, हैदराबाद, 1 दिसम्बर 2009

(2009एबी1399) बी पदमा, ए एस एल, हैदराबाद, 18 जून 2009

(2009एबी1005) संजय कुमार जायसवाल, केयर, बेंगलौर, 3 जून 2009

(2011एबी1002) के राजकुमार, केयर, बेंगलौर, 3 जनवरी 2011

(2010एबी1128) प्रदीप कुमार के पी, केयर, बेंगलौर, 19 मई 2010

(2009एबी1129) ओमकार कोटेकर, डी एल आर एल, हैदराबाद, 3 जून 2009

(2009एबी1379) कृष्णा कुंभार, डी एम आर एल, हैदराबाद, 3 जून 2009

(2009एबी1644) अकुला सुरेश, डी आर डी एल/ए एन ए पी, हैदराबाद, 1 दिसम्बर 2009

(2009एबी1633) अरशद इकबाल, जी टी आर ई, बेंगलौर, 1 दिसम्बर 2009

(2010एबी1213) एस रामाचन्द्रा, जी टी आर ई, बेंगलौर, 31 दिसम्बर 2010

(2010एबी1165) के जयाप्रकाश, जी टी आर ई, बेंगलौर, 19 मई 2010

(2009एबी1661) सुनील कुमार सिंह, एच ई एम आर एल, पुणे, 1 दिसम्बर 2009

(2009एबी1636) मनोज कुमार कुलदीप, एच ई एम आर एल, पुणे, 1 दिसम्बर 2009

(2009एबी1380) आर महेश बाबु, एन एम आर एल, अंबरनाथ, 3 जुलाई 2009

(2010एबी1114) रिया जोसफ, एन पी ओ एल, कोच्ची, 19 मई 2010

(2008एबी1606) एस सरवनन, एन पी ओ एल, कोच्ची, 03 दिसम्बर 2008

(2010एबी1105) चीपुरुपाली सी एच नायडू, एन एस टी एल, विशाखापत्तनम, 19 मई 2010

(2009एबी1242) कार्तिक ए, आर सी आई, हैदराबाद, 3 जून 2009

(2009एबी1017) प्रभजन कुमार, स्पीक, दिल्ली, 8 जून 2009

(2009एबी1245) पंकज सैनी, टी बी आर एल, चंडीगढ़, 3 जून 2009

(2009एबी1609) सुनील कुमार, वी आर डी ई, अहमदनगर, 1 दिसम्बर 2009

स्मिता आहूजा
उप-निदेशक
कार्मिक (एस-1)

सेना शाखा

सं. 362, दिनांक 17 अगस्त 2012--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित की सहर्ष पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थाई आयोग

लेफ्टि कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

(आईसी-52351) बी एस भदौरिया, एसी, 31 दिसम्बर 2010 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जून 2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-52453) आर बक्शी, एसी, 31 दिसम्बर 2010 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जून 2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-54966) वी वी एस कनवर, एसी, 31 दिसम्बर 2010 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जनवरी 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-55008) बी कुछेरिया, एसी, 01 मार्च 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जनवरी 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-52724) ए कालिया, एसी, 01 अप्रैल 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जनवरी 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-52725) डी शयोरान, एसी, 01 अप्रैल 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जनवरी 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-52727) एम ए शेक, एसी, 31 दिसम्बर 2010 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जनवरी 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-52762) ए अवस्थी, एसी, 31 दिसम्बर 2010 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जनवरी 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-52795) जी शर्मा, एसी, 31 दिसम्बर 2010 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जनवरी 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-52798) गोपाल कपूर, एसी, 01 अप्रैल 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जनवरी 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-52861) एम एस प्रकाश, एसी, 01 जुलाई 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जनवरी 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-52969) ए एस लूथरा, एसी, 01 सितम्बर 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जनवरी 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-53036) वी एस गोदारा, एसी, 31 दिसम्बर 2010 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जनवरी 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-53122) ए शर्मा, एसी, 01 मार्च 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जनवरी 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-53123) आर तेवतिया, एसी, 01 फरवरी 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जनवरी 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-53132) एच एम प्रीजा, एसी, 31 दिसम्बर 2010 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जनवरी 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-53237) टी के सिंह, एसी, 01 अक्टूबर 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जनवरी 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-53274) गगन सिंह, एसी, 31 दिसम्बर 2010 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जनवरी 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-53329) एस हुसैन, एसी, 01 जून 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जनवरी 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-53378) एम त्रिवेदी, एसी, 01 मई 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जनवरी 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-53426) के के सिंह, एसी, 21 दिसम्बर 2010 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जनवरी 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-55212) एन आर पांडे, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010

- (आईसी-55236) एस सरदाना, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-55238) एम रामकिशन, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-55249) ए शर्मा, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-55283) रंजीत सिंह, आर्टी, 01 मार्च 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
- (आईसी-53525) डी के आर गौतम, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53534) शुक्ला एम, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53536) अस्थाना ए, आर्टी, 01 मई 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
- (आईसी-53537) अग्रवाल वी, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53539) गिल आर, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53542) देवेन्द्र पांडे, आर्टी, 10 मई 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
- (आईसी-53554) शर्मा एम के, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53560) रोहित झा, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53570) वर्मा डी एस, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53574) तिवारी डी के, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53589) भाटिया एन, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53593) दहिया ए के, आर्टी, 01 मई 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
- (आईसी-53598) रविन्द्र सिंह, आर्टी, 01 जून 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
- (आईसी-53625) कुमार बी एस, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53636) अग्निहोत्री आर, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53645) शेख एस, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53646) मुखर्जी एस, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53661) हुसैन एस पी ए, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53668) राजगुरू जे जे, आर्टी, 21 जुलाई 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
- (आईसी-53676) भाटिया एम, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53692) बारबरे ए जी, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53694) राज ए, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53696) सिंह एन, आर्टी, 05 मार्च 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
- (आईसी-53704) कामथ वी वी, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53714) सुनील ए, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53715) डडवाल आर एस, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53724) कुमार आर, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53736) सिंह ए के, आर्टी, 15 अक्टूबर 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
- (आईसी-53741) बेनीवाल पी, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53746) कुमार बी, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53756) यादव वी, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53765) राजमन्नार एम ए, आर्टी, 01 जनवरी 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
- (आईसी-53789) हरीहर एम ए के एम, आर्टी, 20 अगस्त 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
- (आईसी-53792) त्रिपाठी ए, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53793) बतरा वाई, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53794) कार के, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53809) जसरोटिया आर एस, आर्टी, 15 मार्च 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
- (आईसी-53814) धवन आर, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53823) सिंह ए के, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53831) कटियार एस, आर्टी, 15 मई 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
- (आईसी-53847) शर्मा जे एम, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-55363) आर अरोरा, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-55386) ए बी शिंदे, आर्टी, 01 मार्च 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
- (आईसी-53927) आर के ठाकुर, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53932) ए नगयाल, आर्टी, 01 अप्रैल 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
- (आईसी-53933) नाहु खान, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53935) बी एस जेसटिरिया, आर्टी, 17 अप्रैल 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
- (आईसी-53938) आर आर मिश्रा, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010
- (आईसी-53961) एस तिवारी, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010

(आईसी-53965) ए के मुंडरा, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010

(आईसी-53968) एन अवस्थी, आर्टी, 01 मई 2011, किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-53974) एस आहुजा, आर्टी, 01 मार्च 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-53976) एन एस भदौरिया, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010

(आईसी-53989) आर कुशवाहा, आर्टी, 01 मार्च 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-54005) डी एस सयाना, आर्टी, 25 मार्च 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-54013) आर सुब्रमनियन, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010

(आईसी-54015) आर पांडे, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010

(आईसी-54037) एम पी उदय, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010

(आईसी-54047) वी एम गोलाकोट, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010

(आईसी-54066) ए मिश्रा, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010

(आईसी-54075) पी मिश्रा, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010

(आईसी-54092) एच के शाह, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010

(आईसी-54093) वाई शर्मा, आर्टी, 15 मई 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-54099) एम के सिंह, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010

(आईसी-54121) सी एस शर्मा, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010

(आईसी-54158) एस खासनविस, आर्टी, 05 मार्च 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-54172) ए श्रीवास्तव, आर्टी, 15 सितम्बर 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-54184) एम कुमार, आर्टी, 01 अप्रैल 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-54197) आर एन तिवारी, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010

(आईसी-54198) एम रोहतगी, आर्टी, 15 मई 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-54231) डी के बोस, आर्टी, 31 दिसम्बर 2010

(आईसी-54759) वी डी काने, एएडी, 01 जनवरी 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जून 2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-51939) राम नरेश, एएडी, 01 जनवरी 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जून 2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-51984) विकास खन्ना, एएडी, 01 फरवरी 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जून 2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-51952) आर डडवाल, एवीएन, 31 दिसम्बर 2010 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जून 2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-51980) सत्यवीर, एवीएन, 31 दिसम्बर 2010 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जून 2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-51018) यू एस राठौर, एवीएन, 31 दिसम्बर 2010 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जून 2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-52360) सौरव, एवीएन, 31 दिसम्बर 2010 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जून 2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-52416) एस वडेरा, एवीएन, 31 दिसम्बर 2010 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जून 2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-52835) एम एस बेन्स, इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जनवरी 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-53160) आशीष सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जनवरी 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-53250) एन आर सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जनवरी 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-52882) विक्रम दूबे, इन्फैन्ट्री, 09 अक्टूबर 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-55143) पी जे सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-55217) आदित्य नेगी, इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-55227) अनिल कुमार, इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-55230) एल एस महादेवन, इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-55231) गुरबीर सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-55235) सी एस वर्धन, इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-55244) डी एस थापा, इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-53596) दीपक शर्मा, इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-53548) वी एस नेगी, इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-54007) आर खोसला, इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31 दिसम्बर 2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-46873) बी एस गोराया, ए एस सी, 28 फरवरी 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 मई 2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-46929) डी संदीप, ए एस सी, 20 मार्च 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 मई 2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-54671) संदीप भाटिया, ए एस सी, 07 मार्च 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 मई 2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-46395) संदीप कुमार, जैग, 01 फरवरी 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 मई 2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(एस एल-03750) पियारा लाल चौधरी, एस एल आर ओ, 27 जुलाई 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 10 जनवरी 2008 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-51662) आर आर यादव, ए ओ सी, 01 मई 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 मई 2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(एस एल-03898) आर पी सिंह, एस एल क्यू एम, 01 मार्च 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 10 जनवरी 2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-53101) ए जे नरेशभाई, ईएमई, 01 जनवरी 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 मई 2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-51591) जी सिंघल, ईएमई, 01 जनवरी 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 मई 2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-53113) सुरेश एस, ईएमई, 01 जनवरी 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 मई 2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-52305) एस कपिला, ईएमई, 01 जनवरी 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 मई 2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

(आईसी-50288) एस कुमार, ईएमई, 12 सितम्बर 2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 मई 2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

टी के दास
उप निदेशक
एम एस-8ए

सेना शाखा

सं. 363, दिनांक 21 अगस्त 2012--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले कर्नल

(आईसी-52773) लेलित सैगल, आर्टी, 17 अक्टूबर 2011

(आईसी-53568) प्रवीण कुमार गणपतराव निम्बाल्कर, एसी, 17 अक्टूबर 2011

(आईसी-55275) जितेन्द्र थापा, एएससी, 17 अक्टूबर 2011

(आईसी-55741) रंधीर कुमार द्विवेदी, ईन्ट, 17 अक्टूबर 2011

(आईसी-55862) दिलीप रेड्डी काटंगुरे, ईएमई, 17 अक्टूबर 2011

(आईसी-55900) अमित विक्रम सिंह, एईसी, 17 अक्टूबर 2011

(आईसी-55948) मनीष सुधाकर देवरे, ईएमई, 17 अक्टूबर 2011

(आईसी-56007) आई चुबाशशि, इन्फैन्ट्री, 07 नवम्बर 2011

(आईसी-56790) सुनिल कुमार, इन्फैन्ट्री, 17 अक्टूबर 2011

(आईसी-56794) हरिन्दर सिंह, एओसी, 17 अक्टूबर 2011

(आईसी-56805) सिद्धार्थ उपाध्याय, एओसी, 17 अक्टूबर 2011

(आईसी-57221) संग्राम सिंह, आर्टी, 17 अक्टूबर 2011

(आईसी-57277) सतवेन्द्र नाथ राय, एसी, 17 अक्टूबर 2011

(आईसी-57300) लक्ष्मीकांत सुरेश, इंजीनियर्स, 07 जून 2010

(आईसी-57391) कंवल सिंह, एवीएन, 06 दिसम्बर 2010

(आईसी-57532) अमित शुक्ला, एओसी, 17 अक्टूबर 2011

(आईसी-57573) अरुण दहिया, इंजीनियर्स, 17 अक्टूबर 2011

(आईसी-57695) राजेश बाबू मंतेना, एवीएन, 06 दिसम्बर 2010

(आईसी-57728) विजय सिंह यादव, एवीएन, 13 जून 2011

(आईसी-57877) अनिश किशोर, एवीएन, 13 जून 2011

(आईसी-57904) एम दास, ईएमई, 17 अक्टूबर 2011

(आईसी-58583) सैयद फराज जैदी, ईएमई, 17 अक्टूबर 2011

(आईसी-59563) उदयन बासु, इंजीनियर्स, 17 अक्टूबर 2011

(आईसी-60049) मनहास संदीप कुमार, सिग्नल, 17 अक्टूबर 2011

(एससी-00047) अब्दुल माजिद ए एम, आर्टी

(एससी-00060) श्रीनिवासन गणपथी, सिग्नल्स

(एससी-00073) आर श्रीनिवासन, एडी आर्टी

- (एससी-00077) हरविन्दर सिंह, आर्टी
 (एससी-00116) सुबा सिंह, इंजीनियर्स
 (एससी-00121) वीराम सिंह, आर्टी
 (एससी-00151) राम किशन परमार, इन्फैन्ट्री

--17 अक्टूबर 2011

- (एसएल-04561) सतीश शर्मा, इंजीनियर्स
 (एसएल-05079) राम कुमार राम, ईएमआई (ए ई)
 (एसएल-05090) अरविन्द कुमार, क्यू एम

--17 अक्टूबर 2011

- (डब्ल्यूएस-00428) जोशी वल्लारी अन्ना, ईएमई

--17 अक्टूबर 2011

- (एसएस-38573) युधवीर सिसोदिया, ईएमई

--06 नवंबर 2011

- (आईसी-58132) जयदीप अगरकर, सिग्नल्स
 (आईसी-58133) आलोक मिश्रा, एडीए
 (आईसी-58134) पियुष बेबेरवाल, एसी
 (आईसी-58135) योगेश सिंह चौहान, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58136) राजीव भार्गव, एसी
 (आईसी-58137) सचिन शर्मा, एडीए
 (आईसी-58138) राजदीप सिंह चौहान, एसी
 (आईसी-58139) सुमीत सेवाल, एसी
 (आईसी-58140) अतुल बहुगुणा, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58141) आशीष रायसिंघानी, इंजीनियर्स
 (आईसी-58142) ईसैन्यो के, एसी
 (आईसी-58143) सुखचैन सिंह, ईएमई
 (आईसी-58145) विशाल शर्मा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58146) समिन्दर मोर, आर्टी
 (आईसी-58147) संदीप सिरौही, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58148) राजेश वेणुगोपाल, ईएमई
 (आईसी-58149) चंद्रशेखर वसंत इंगावाले, ईएमई
 (आईसी-58150) मंदीप सिंह कहलोन, इन्फैन्ट्री

- (आईसी-58152) गुरदेव सिंह, एओसी
 (आईसी-58153) शैलेन्द्र सिंह आर्या, आर्टी
 (आईसी-58155) राजेश कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58156) जी सुनिल कुमार, इंजीनियर्स
 (आईसी-58157) हरबीर सिंह, आर्टी
 (आईसी-58159) संजय वी कुलकर्णी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58160) संतोष यशवंत महादिक, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58161) देवाशीष खत्री, एससी
 (आईसी-58162) दीपक कुमार, सिग्नल्स
 (आईसी-58163) राजेन्द्र सिंह, ईएमई
 (आईसी-58164) कुणाल शर्मा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58165) मनीष सहगल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58166) गगणदीप सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58167) मरली महालिंगम, एसी
 (आईसी-58168) घन श्याम पांडे, एससी
 (आईसी-58169) मोहित शर्मा, आर्टी
 (आईसी-58170) मधु उन्नीकृष्णन नायर, इंजीनियर्स
 (आईसी-58171) तेजेन्द्र चौधरी, आर्टी
 (आईसी-58172) मानिक बतावली, इंजीनियर्स
 (आईसी-58173) मोहम्मद अमजद खान, आर्टी
 (आईसी-58174) अजीत पाल सिंह ढांडा, एसी
 (आईसी-58176) श्रीकांत के कृष्णा, सिग्नल्स
 (आईसी-58177) मयंक शुक्ला, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58179) गगण आनंद, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58180) गिरिधर ढांडीराम कोले, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58181) सौम्या सिन्हा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58182) दिनकर सेगल, एससी
 (आईसी-58183) अशोक आर्या, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58184) गुरुंग उन बहादुर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58185) विवेक पांडे, इंजीनियर्स
 (आईसी-58186) समशेर सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58187) निरज कुमार सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-58188) मोहित ममगैन, एससी

(आईसी-58189) सी प्रदीप रेड्डी, एएससी	(आईसी-58227) राकेश नायर, एओसी
(आईसी-58191) विक्रम दाहिया, ईएमई	(आईसी-58228) अमित मेहरा, एएससी
(आईसी-58192) सत्रे हर्षवर्धन, आर्टी	(आईसी-58229) रनित कंवर अहलूवालिया, एडीए
(आईसी-58193) अमित दुआ, सिग्नल्स	(आईसी-58230) अजय राज, इन्फैन्ट्री
(आईसी-58194) गगण दीप कटयाल, इंजीनियर्स	(आईसी-58231) समीर अरोरा, इंजीनियर्स
(आईसी-58196) अनिल दाहिया, आर्टी	(आईसी-58232) ब्रज भूषण मिश्रा, आर्टी
(आईसी-58197) हरिश शर्मा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-58233) मृगंक पॉल, ईएमई
(आईसी-58198) फरज इकबाल, सिग्नल्स	(आईसी-58234) अमन इंदर बरार, आर्टी
(आईसी-58199) संदीप खत्री, ईएमई	(आईसी-58235) राजगोपाल एस, ईएमई
(आईसी-58201) प्रदीप बलहारा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-58236) हिमांशु कालिया, एएससी
(आईसी-58203) अनिल कुमार गुलिया, एएससी	(आईसी-58237) मनिष सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
(आईसी-58204) श्रीष बहुगुणा, ईएमई	(आईसी-58238) मनिष कारकी, इन्फैन्ट्री
(आईसी-58205) लोकेश कुमार बाले, एडीए	(आईसी-58240) ब्रिजेश, ईएमई
(आईसी-58206) प्रशांत दिक्षित, मैक इन्फैन्ट्री	(आईसी-58241) शंकर दयाल सिंह, आर्टी
(आईसी-58207) बोनाम श्रीनिवास राव, आर्टी	(आईसी-58242) राहुल रंजन, इंजीनियर्स
(आईसी-58208) सतिन्दर बीर सिंह, एएससी	(आईसी-58244) सचिन शिवराज रंडेल, आर्टी
(आईसी-58209) संतोष मारुति इथाप, सिग्नल्स	(आईसी-58245) अरुण वेणुगोपाल, इंजीनियर्स
(आईसी-58210) गुरप्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-58246) बदाइन क्षितिज प्रकाश, आर्टी
(आईसी-58211) अमित गोयल, एएससी	(आईसी-58247) तरुण वोहरा, आर्टी
(आईसी-58212) गौरव भंडारी, ईएमई	(आईसी-58248) अभिजित ठाकरे, इन्फैन्ट्री
(आईसी-58213) रुतुपर्णा भोरास्कर, इंजीनियर्स	(आईसी-58249) गुरिन्दर पाल सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-58214) संजय राव पतनागाराव पाटिल, इन्फैन्ट्री	(आईसी-58250) रोहित ठाकुर, इन्फैन्ट्री
(आईसी-58215) रंजीत झा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-58251) तुषार विग, इंजीनियर्स
(आईसी-58216) मनोहरन टी, एओसी	(आईसी-58252) राजमणी विनायक, इन्फैन्ट्री
(आईसी-58217) भोपिंदर सिंह सग्गी, एओसी	(आईसी-58253) मनिष राज, एवीएन
(आईसी-58218) हितेश कोछर, एडीए	(आईसी-58255) सूरज भंवर राठौर, एओसी
(आईसी-58219) अर्जन सिंह बेदी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-58256) विकास गुलिया, इंजीनियर्स
(आईसी-58220) पुष्पेन्द्र झिंकवान, इन्फैन्ट्री	(आईसी-58257) सरजीत सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-58221) संग्राम कंसरी पटनायक, एडीए	(आईसी-58258) निखिल शर्मा, एडीए
(आईसी-58222) हिमेश कुमार, इन्फैन्ट्री	(आईसी-58259) एस दीपक, इंजीनियर्स
(आईसी-58223) साकेत लाल, आर्टी	(आईसी-58260) वरुण कुमार, आर्टी
(आईसी-58224) पृथ्वी राज सिंह रावत, इन्फैन्ट्री	(आईसी-58261) विकास भाटिया, एओसी
(आईसी-58225) उदयन आचार्या, सिग्नल्स	(आईसी-58262) हरमनजीत सिंह, ईएमई
(आईसी-58226) विनित त्यागी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-58263) गगनदीप अरोरा, ईएमई

(आईसी-58265) आदित्या शर्मा, एओसी
 (आईसी-58266) के संदीप कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58267) हिमांशु भटनागर, आर्टी
 (आईसी-58268) पी शंकर स्वरूप, आर्टी
 (आईसी-58269) संदीप सिंह गुसाई, सिग्नल्स
 (आईसी-58270) एम बालगोपाल, एसी
 (आईसी-58271) राजदीप दत्ता, आर्टी
 (आईसी-58272) समीर शर्मा, आर्टी
 (आईसी-58273) आजु ओ मांगली, आर्टी
 (आईसी-58274) देवी सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58276) गौरव विक्रम सिंह छोंकर, आर्टी
 (आईसी-58277) अंकुर शर्मा, एएससी
 (आईसी-58279) आशीष कुमार शर्मा, ईएमई
 (आईसी-58280) संजय सिंह राणा, एडीए
 (आईसी-58281) सत्यरंजन पांडा, सिग्नल्स
 (आईसी-58282) पंकेश कुमार मिश्रा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58284) सुब्रतो चक्रवर्ती, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58285) आकाश प्रमोद पाटिल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58286) समिन्दर सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58288) गोरव शर्मा, सिग्नल्स
 (आईसी-58289) सुरेश कुमार ढाका, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58290) विट्ठल राव एडा, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58291) के अरुण, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58292) ध्रुव कुमार गुप्ता, एएससी
 (आईसी-58293) संदीप खोखर, इंजीनियर्स
 (आईसी-58295) सौरभ चौहान, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58296) कुमार रणविजय, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58297) राजीव रंजन, आर्टी
 (आईसी-58298) ललित कुमार मोहंती, आर्टी
 (आईसी-58299) रजनीश वाधवा, ईएमई
 (आईसी-58300) कपिल वस्सी सेमा, इंजीनियर्स
 (आईसी-58301) अरुण प्रताप सिंह भदोरिया, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58302) सौरभ नौटियाल, आर्टी
 (आईसी-58303) सोनु, इन्फैन्ट्री

(आईसी-58304) आदित्य विक्रम सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58305) महेन्द्र पाल सिंह मौर्या, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58306) संजीव कुमार, एसी
 (आईसी-58307) साई किरण सैलादा, एडीए
 (आईसी-58308) कंवरदीप सिंह सिधू, एडीए
 (आईसी-58309) विकास ग्रेवाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58310) मनोरम यादव, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58311) तारिक खान, ईएमई
 (आईसी-58312) सुरेश धुल, एओसी
 (आईसी-58314) संदीप कुमार तिवारी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58315) विभोर शर्मा, सिग्नल्स
 (आईसी-58316) प्रदीप गोस्वामी, इंजीनियर्स
 (आईसी-58317) राजीव रंजन, ईएमई
 (आईसी-58318) सुनिल तुकाराम चिक्कोरदे, आर्टी
 (आईसी-58319) अरविंद सिंह, एएससी
 (आईसी-58320) निरज दुबे, एएससी
 (आईसी-58321) आनंद राव मागुपल्ली, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58322) समुद्र विजय शर्मा, एडीए
 (आईसी-58323) विश्वास बहुखांडी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58324) भारत सिंह रावत, एसी
 (आईसी-58325) मानव कुमार शर्मा, एओसी
 (आईसी-58326) आलोक धर, इंजीनियर्स
 (आईसी-58327) वी शशि कुमार, एओसी
 (आईसी-58328) शैलेश कुमार, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58329) रंजन प्रभू, आर्टी
 (आईसी-58331) ब्रिज भूषण सिंह पुंडिर, एडीए
 (आईसी-58332) प्रशांत मलिक, सिग्नल्स
 (आईसी-58333) रविचंद्रन टी एन, एसी
 (आईसी-58334) सूरज नारायण मिश्रा, ईएमई
 (आईसी-58335) अनुराग मिश्रा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58336) रणवीर सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58337) प्रशांत गोपालकृष्णन नायर, आर्टी
 (आईसी-58338) अमरजीत सिंह मलिक, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58339) विशाल शर्मा, एएससी

(आईसी-58340) राजीव चौधरी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-58377) सुदीप प्रोवर, इंजीनियर्स
(आईसी-58341) श्रीनिवास एम एन, इंजीनियर्स	(आईसी-58378) शिव कमल सिन्हा, ईएमई
(आईसी-58342) दिवाकर सिंह जामवाल, सिग्नल्स	(आईसी-58379) मुकुल चड्ढा, मैक इन्फैन्ट्री
(आईसी-58343) पियुष चक्रवर्ती, एओसी	(आईसी-58380) रोमित बर्थवाल, ईएमई
(आईसी-58345) पी सुमोद, ईएमई	(आईसी-58381) मनोज कुमार सिंह, इंजीनियर्स
(आईसी-58346) सचिन भाजेकर, इंजीनियर्स	(आईसी-58382) प्रवीण मोतीरामजी गनोरकर, आर्टी
(आईसी-58348) गजानन सुधीर उम्बरानीकर, आर्टी	(आईसी-58383) स्वपनदीप भट्टाचार्या, एएससी
(आईसी-58349) रजत मोहन, आर्टी	(आईसी-58384) ओमेश शुक्ला, ईएमई
(आईसी-58350) शमशेर सिंह, ईएमई	(आईसी-58385) अमित बाली, इन्फैन्ट्री
(आईसी-58351) नवल किशोर शर्मा, एएससी	(आईसी-58386) गौतम रॉय, इन्फैन्ट्री
(आईसी-58352) अविक डे, ईएमई	(आईसी-58387) पीपी प्रमोद, एसी
(आईसी-58353) अभय पंत, इंजीनियर्स	(आईसी-58388) लक्ष्मण तिवारी, मैक इन्फैन्ट्री
(आईसी-58354) मंथा स्वाथी कुमार, इन्फैन्ट्री	(आईसी-58389) मनीष शुक्ला, एओसी
(आईसी-58355) श्रीकुमार आर के, एएससी	(आईसी-58390) आशीष शुक्ला, आर्टी
(आईसी-58356) विजय राज सिंह कटवाल, इंजीनियर्स	(आईसी-58391) रविन्दर किंगरा, इन्फैन्ट्री
(आईसी-58357) अखिलेश तोमर, इन्फैन्ट्री	(आईसी-58392) सिद्धार्थ तोमर, आर्टी
(आईसी-58358) चेतन चौहान, एएससी	(आईसी-58394) धिरेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-58359) मनमीत सिंह, एडीए	(आईसी-58395) सोमेश गुप्ता, एडीए
(आईसी-58360) प्रयोग सुब्बा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-58397) बलजिन्दर सिंह उप्पल, इन्फैन्ट्री
(आईसी-58361) विक्रम देवगन, एडीए	(आईसी-58398) सुहास शरद रौत, इन्फैन्ट्री
(आईसी-58362) नरिन्दर कुमार शर्मा, इंजीनियर्स	(आईसी-58399) अमित श्रीवास्तव, सिग्नल्स
(आईसी-58363) प्रतिबिम्ब, एवीएन	(आईसी-58400) तेज करम सिंह शेखोन, इन्फैन्ट्री
(आईसी-58364) विक्रम एस ठाकुर, इन्फैन्ट्री	(आईसी-58401) सुबीर कुमार चक्रवर्ती, सिग्नल्स
(आईसी-58365) आदित्य प्रताप सिंह चौहान, ईएमई	(आईसी-58402) परमजीत सिंह, सिग्नल्स
(आईसी-58366) हरप्रीत सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-58403) चटोथ बिनु भारथन, इन्फैन्ट्री
(आईसी-58368) गौतम कुमार चौहान, आर्टी	(आईसी-58404) रजनीश अय्यर, आर्टी
(आईसी-58369) विशाल सिंह बैस, इन्फैन्ट्री	(आईसी-58405) सुकेश वर्मा, एसी
(आईसी-58370) तरुण सति, इन्फैन्ट्री	(आईसी-58406) संतोष कुमार, एओसी
(आईसी-58371) होहम रोमेश सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-58407) नंद भजेकर, इन्फैन्ट्री
(आईसी-58372) थोमस सी आई, सिग्नल्स	(आईसी-58408) अजय निशिकांत, इंजीनियर्स
(आईसी-58373) विजय सिंह यादव, आर्टी	(आईसी-58409) संदीप मिश्रा, एडीए
(आईसी-58374) अरिजीत मित्रा, एवीएन	(आईसी-58410) मयंक पठानिया, इन्फैन्ट्री
(आईसी-58375) राजपाल सिंह रावत, एओसी	(आईसी-58411) केदार भीमराव कदम, ईएमई
(आईसी-58376) कंवर युद्धेश्वर, एसी	(आईसी-58412) कमल मेहता, एओसी

(आईसी-58413) जोगेन्द्र नाथ शर्मा, सिग्नल्स
 (आईसी-58415) अक्षय कालिया, आर्टी
 (आईसी-58416) चितरंजन रौतेला, इंजीनियर्स
 (आईसी-58417) नवनीत सिंह, आर्टी
 (आईसी-58418) राममोहन नारायण स्वामी, एसी
 (आईसी-58419) धरमवीर सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58420) प्रवीण तोमर, एएससी
 (आईसी-58421) राजनीत तुकनैत, एएससी
 (आईसी-58422) प्रकाश नायर, एएससी
 (आईसी-58423) नितिन सचदेवा, एएससी
 (आईसी-58424) सुखबीर औजला, सिग्नल्स
 (आईसी-58425) गुप्ता मनीष, आर्टी
 (आईसी-58426) नवनीत कुमार, ईएमई
 (आईसी-58427) कौशिक रे, आर्टी
 (आईसी-58428) सेल्वम के, इंजीनियर्स
 (आईसी-58429) राजेश कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58430) अमित सोनी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58431) शैलेन्द्र कुमार गुप्ता, आर्टी
 (आईसी-58432) सुमित दुआ, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58433) तनवीर सिंह मन्न, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58434) संतोष विन्सेन्ट, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58436) नंदुला सुनिल, आर्टी
 (आईसी-58437) आशीष चंद्रा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58438) चतुर्वेदी धीरज महेश, एडीए
 (आईसी-58439) हर्षविन्दर पाल सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-58440) मोहित सिंह, आर्टी
 (आईसी-58441) सुनिल कुमार प्रासर, आर्टी
 (आईसी-58442) रुपम चटर्जी, इंजीनियर्स
 (आईसी-58443) युसूफ सैफी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58444) संतोष भारद्वाज, एएससी
 (आईसी-58445) के ब्रिजेश कटोच, इन्ट
 (आईसी-58446) कमलेश कुमार तिवारी, इंजीनियर्स
 (आईसी-58447) सुनिल मुदगल, एओसी
 (आईसी-58448) अजय सिंह त्यागी, आर्टी

(आईसी-58449) विशाल अहलावत, ईएमई
 (आईसी-58450) अविनेश पाल सिंह, एडीए
 (आईसी-58451) निरज, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58452) अनिल वर्मा, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58453) कुशल सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58454) सुमित शर्मा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58455) गौरव दत्ता, आर्टी
 (आईसी-58456) कपिल मेहता, ईएमई
 (आईसी-58457) जसवेन्द्र सिंह बरगोटी, इंजीनियर्स
 (आईसी-58458) ऋषि भारद्वाज, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58459) सी मुत्थू गणेश, सिग्नल्स
 (आईसी-58461) सचिन दुसेजा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58462) शिनिष मुकुन्दन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58463) प्रबनाश चंद्र मिश्रा, ईएमई
 (आईसी-58464) सुबीर सोढी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58465) विष्णु तिवारी, एसी
 (आईसी-58466) कुलवन्त सिंह कुहाद, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58467) कुलदीप सिंह, आर्टी
 (आईसी-58468) अंजनी कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58469) चंदन सिंह बांगरी, एएससी
 (आईसी-58470) विनित सारावत, एसी
 (आईसी-58471) एस वी एस सुदर्शन, सिग्नल्स
 (आईसी-58472) सी राजशेकर, इंजीनियर्स
 (आईसी-58473) सुनिल दत्त, ईएमई
 (आईसी-58476) अरुण कुमार शुक्ला, ईएमई
 (आईसी-58477) प्रदीप सिंह पठानिया, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58478) समित कुमार, एडीए
 (आईसी-58480) अभिषेक पोखरियाल, इंजीनियर्स
 (आईसी-58481) हर्ष कुमार सचदेवा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58482) विक्रम सिंह संखला, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58483) भारत जे जोशी, इंजीनियर्स
 (आईसी-58484) दिनेश सिंह मनकोटिया, आर्टी
 (आईसी-58485) दीपक सिंह सामंत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-58486) सौरभ शुक्ला, एएससी

(आईसी-58487) विक्रम पनेरी, एसी	(आईसी-58526) ललित नारायण महापात्रा, आर्टी
(आईसी-58488) अमित भोला, आर्टी	(आईसी-58528) चंद्र शेखर पांडे, इन्फैन्ट्री
(आईसी-58489) जसविंदर पाल, आर्टी	(आईसी-58529) भारत कोल्लीपारा, एओसी
(आईसी-58491) ऋषि कृष्णा, आर्टी	(आईसी-58530) सिद्धार्थ शंकर सिंह, एएससी
(आईसी-58493) विरेन्द्र सिंह, आर्टी	(आईसी-58531) सौमित्रा कुमार पटनायक, एडीए
(आईसी-58494) नरेन्द्र कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-58532) नलिन कुमार गुप्ता, एएससी
(आईसी-58495) प्रदीप्ता दत्ता, एडीए	(आईसी-58534) सुनिल कुमार पी, एडीए
(आईसी-58496) रोहित पटेल, सिग्नल्स	(आईसी-58535) अंशुमन चौहान, एसी
(आईसी-58497) देवाशीष सिंह, मैक इन्फैन्ट्री	(आईसी-58537) निर्भय शर्मा, सिग्नल्स
(आईसी-58498) अपोलो घोष, ईएमई	(आईसी-58538) विनित कुमार तिवारी, इंजीनियर्स
(आईसी-58499) प्रदीप थापा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-58539) प्रणय राज, ईएमई
(आईसी-58500) अंकुर भटनागर, एएससी	(आईसी-58540) संजय कुमार पटनायक, इन्फैन्ट्री
(आईसी-58501) पंकज बिष्ट, ईएमई	(आईसी-58541) विशाल दत्ता, इन्फैन्ट्री
(आईसी-58502) वेद पाल सिंह पटयाल, ईएमई	(आईसी-58542) नितेश दत्ता, इन्फैन्ट्री
(आईसी-58503) राजेश सिंह, इंजीनियर्स	(आईसी-58543) बिक्रमजीत सिंह, एसी
(आईसी-58504) रवि शेखर सिन्हा, इंजीनियर्स	(आईसी-58545) अमित कुमार, इन्फैन्ट्री
(आईसी-58505) श्यामनुज दास, एएससी	(आईसी-58546) सागर सिंह, आर्टी
(आईसी-58506) श्रीकान्त, ईएमई	(आईसी-58547) सोनल चंद्रा, इंजीनियर्स
(आईसी-58507) संदीप मोहापात्रा, एडीए	(आईसी-58548) संयम कश्यप, आर्टी
(आईसी-58508) विकास त्रिवेदी, एसी	(आईसी-58549) ऋषि राज भाटी, आर्टी
(आईसी-58509) सत्येश यादव, एओसी	(आईसी-58551) नीरज कुमार, एओसी
(आईसी-58510) राजीव नयन, इन्फैन्ट्री	(आईसी-58552) अवनीश सिंह, आर्टी
(आईसी-58511) दिनेश चंद्र नौटियाल, आर्टी	(आईसी-58553) प्रदीप कुमार, इन्फैन्ट्री
(आईसी-58512) बारावकर विक्रम भास्करराव, इन्फैन्ट्री	(आईसी-58554) राजविन्दर सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
(आईसी-58513) विवेक भारद्वाज, आर्टी	(आईसी-58555) सुशील चंद पांडे, इंजीनियर्स
(आईसी-58514) विशाल शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री	(आईसी-58557) रोहित सैनी, सिग्नल्स
(आईसी-58515) अंशु भंडारी, आर्टी	(आईसी-58558) अतुल कान्त, ईएमई
(आईसी-58517) सुनिल डागर, इन्फैन्ट्री	(आईसी-58559) अनिल कुमार सिंह राठौर, एएससी
(आईसी-58518) निशांत बरियार, इन्फैन्ट्री	(आईसी-58565) जगजीत बसवाना, मिलिट्री फार्म
(आईसी-58519) संजीव शिवा, सिग्नल्स	
(आईसी-58520) राकेश कुमार शेहरावत, इन्फैन्ट्री	
(आईसी-58521) रविन्द्र पाल सिंह, सिग्नल्स	
(आईसी-58523) मुकुल चौहान, इन्फैन्ट्री	
(आईसी-58525) विक्रांत त्यागी, इंजीनियर्स	

-----12 दिसम्बर 2011

(आईसी-61162) अजय कुमार, इंजीनियर्स
(आईसी-61163) करमवीर सिंह गिल, इंजीनियर्स
(आईसी-61164) सतपाल सिंह, सिग्नल्स
(आईसी-61165) संजय पिल्लई, सिग्नल्स

(आईसी-61166) सिंह योगवर्द्धम ब्रह्म कुमार, इंजीनियर्स
 (आईसी-61167) अमित प्रदीप शुक्ला, सिग्नल्स
 (आईसी-61168) आर श्रीकान्त भार्गव, ईएमई
 (आईसी-61169) विनय सिंह शेखावत, इंजीनियर्स
 (आईसी-61170) हरप्रीत सिंह सिक्का, ईएमई
 (आईसी-61171) कोशलेन्द्र बहादुर सिंह, ईएमई
 (आईसी-61172) शैलेश बंसल, इंजीनियर्स
 (आईसी-61173) उदय थोराट, ईएमई
 (आईसी-61174) अनुप गोसाई, सिग्नल्स
 (आईसी-61175) अक्षय बलोरिया, ईएमई
 (आईसी-61177) वीरेश शर्मा, इंजीनियर्स
 (आईसी-61179) राजेश रामकृष्णा उपाध्याय, सिग्नल्स
 (आईसी-61180) दीपक पलांडे, इंजीनियर्स
 (आईसी-61181) शशि श्रीमाई, सिग्नल्स
 (आईसी-61182) शरद प्रसाद रौत, ईएमई
 (आईसी-61183) दविन्दर सिंह जसवाल, ईएमई
 (आईसी-61184) सुमेश शर्मा, ईएमई
 (आईसी-61185) अश्वनी कुमार श्रीवास्तव, ईएमई
 (आईसी-61186) बी सत्यनारायण, ईएमई
 (आईसी-61187) अग्नीवेश पांडे, सिग्नल्स
 (आईसी-61188) सुशांत कुमार मिश्रा, ईएमई
 (आईसी-61190) अमित गौर, सिग्नल्स
 (आईसी-61191) ज्योति कुमार, इंजीनियर्स
 (आईसी-61192) वैभव त्रिवेदी, ईएमई
 (आईसी-61193) अमित टंडन, इंजीनियर्स
 (आईसी-61194) भगवान प्रकाश द्विवेदी, ईएमई
 (आईसी-61195) एम सोम राज त्रिपाठी, सिग्नल्स
 (आईसी-61196) पी गौतम सूद, ईएमई
 (आईसी-61197) विशाल सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-61198) भानु प्रताप चंद, सिग्नल्स
 (आईसी-61199) कुलदीप सिंह, ईएमई
 (आईसी-61200) के एस राजशेखर रेड्डी, इंजीनियर्स

(आईसी-61201) गौरव पाठक, सिग्नल्स
 (आईसी-61202) चनम ज्ञानंदा सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-61203) विरेन्द्र कंग, सिग्नल्स
 (आईसी-61204) गगणदीप सिंह भाटिया, इंजीनियर्स
 (आईसी-61205) बिपनीत सिंह चीमा, सिग्नल्स
 (आईसी-61207) प्लाबन गोगई, इंजीनियर्स
 (आईसी-61208) कपिल यादव, ईएमई
 (आईसी-61209) सावन तलुजा, इंजीनियर्स
 (आईसी-61210) पंकज गर्ग, ईएमई
 (आईसी-61211) शाह आनंद नटवरलाल, ईएमई
 (आईसी-61212) इन्द्रनील घोष, ईएमई
 (आईसी-61214) अरुणशेखर सी, इंजीनियर्स
 (आईसी-61215) अनुराग सक्सेना, ईएमई
 (आईसी-61217) रमनदीप सिंह, ईएमई
 (आईसी-61218) असीम विन्सेन्ट निराल सुरीन, सिग्नल्स
 (आईसी-61219) श्रीधर एस नेराली, ईएमई

-----13 दिसम्बर 2011

(आईसी-55902) सुधीर कुमार, एडी आर्टी, 05 मई 2011
 (आईसी-56697) पी वी रमेश बाबू, एडी आर्टी, 07 दिसम्बर 2011
 (आईसी-60042) अमित अत्री, इंजीनियर्स, 14 जून 2011
 (आईसी-60045) अमलान बोराह, इंजीनियर्स, 14 जून 2011
 (एससी-00038) दलविन्दर सिंह, एओसी
 (एससी-00039) पातुरी वी नारायणा रेड्डी, ईएमई
 (एससी-00149) दुग्गीराला श्रीनिवास राव, एओसी

-----12 सितम्बर 2011

अल्पकालीन सेवा कमीशन (मैन)

ले से कप्तान

(एसएस-44999) आनन्द कुमार तिवारी, इंजीनियर्स, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011
 (एसएस-45000) प्रत्याशी प्रियदर्शी मोहनति, मेक, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011
 (एसएस-45001) जेकब कोषी, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45002) वासु गुप्ता, इन्फैन्ट्री, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45003) अंगद पाल रूपराह, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45008) अभिनव सूद, एओसी, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45012) जगदीश सिंह कैडा, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45013) सरबजीत सिंह तिथ, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45014) कुलदीप सिंह शिवरायण, एसी, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45015) बारदे ऋषिकेश अरूण, इंजीनियर्स, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45016) सिद्धार्थ गुरुंग, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45017) तुषार शर्मा, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45018) राजीव मलिक, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45019) नरिन्दर सिंह, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45020) अंशुल कुमार, इन्फैन्ट्री, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45022) दीपक कुमार जी, एएडी, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45023) प्रतीक मलहोत्रा, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45025) सुरेश, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45026) गुनमीत सिंह गुजराल, आर्टी, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45028) अंकुश वशिष्ठ, आर्टी, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45029) विरेन्द्र सिंह तैवर, इंजीनियर्स, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45030) पंकज लोहाच, एएडी, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45031) मन्दीप सिंह भाटिया, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45032) अजय कुमार, इंजीनियर्स, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45034) सार्थक पाण्डेय, आर्टी, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45037) अंतरिक्ष महाजन, एएडी, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45039) पुरुषोत्तम कुमार, एसी, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45043) अजय कुमार गुप्ता, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45045) कमिनलून गूडते, इंजीनियर्स, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45046) अरित्रा घांटी, इंजीनियर्स, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45047) प्रदीप कुमार ठाकुर, आर्टी, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45048) ऋषभ अग्निहोत्री, इंजीनियर्स, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45050) निहार उपाध्याय, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45053) सुशांत सत्यम, आर्टी, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45054) महेन्द्र गोदारा, इन्फैन्ट्री, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45055) सुमित वशिष्ठ, इन्फैन्ट्री, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45058) अभिनव शर्मा, एएडी, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45060) महेश भनोट, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45061) मिखाईल, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45065) अजय कुमार पाल, एससी, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45068) दीपांशु कपूर, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45069) डिसुजा क्लिफ फ्रैंको, इन्फैन्ट्री, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45071) अभिषेक जी सी, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45072) रवि कान्त सिंह, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45077) रोहित कुमार तिवारी, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45079) नरेन्द्र सिंह नेगी, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45080) रवि कान्त रनौत, इंजीनियर्स, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45081) मनीष कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45082) कार्तिक आर, एसी, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45083) एड्रियन माइकल डीसूजा, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45085) सौरभ कुमार, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45089) दीपक नौटियाल, इंजीनियर्स, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45090) वरूण दुग्गल, एओसी, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45092) आदित्य विक्रम सिंह, आर्टी, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45093) राजीव शर्मा, मेक, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45094) अवनीश भट्टाचार्य, इन्फैन्ट्री, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45096) निर्मेष दहिया, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45098) राशिद बिन इस्माइल, इंजीनियर्स, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45107) पियूष मिश्र, इन्फैन्ट्री, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45109) एम ओ राजेश, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45110) पवनजीत सलूजा, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45111) पंकज जालवाल, एएससी, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45112) वरूण के अँगस्टीन, एएससी, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45113) समीर भांडी, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45115) सुब्रत डे, आर्टी, 20 सितम्बर 2009, एसएससी 35 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (एस एस सी डब्ल्यू)

ले से कप्तान

(एसएस-44997) प्रेरणा चौहान, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-44998) श्रीष्ठा सूरेश ओ एस, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45005) दिव्या अग्रवाल, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45006) दिव्या शर्मा, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45007) निवेदिता नान्दल, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45009) प्रीथा गांगुली, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45010) चारू चौहान, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45011) रूचिका पाण्डेय, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45021) थोराट मेघना अजित, इंजीनियर्स, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45024) कविता नेगी, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45027) पल्लवी रावल, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45033) ट्रेसी मेरी जोसेफ, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45035) जया मोटवानी, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45036) गुंजन थपलियाल, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45038) कोमल परिहार, इंजीनियर्स, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45040) श्रेया रावत, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45041) स्वाति शर्मा, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45042) ललिता बिष्ट, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45044) सुचेतना सी इंग्लेश्वर, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45049) अंजली जादौन, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45051) श्रेया मिश्र, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45052) नेमी पांडे, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45056) स्वधा मिश्रा, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45057) भावना एम वी, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45059) चवण गौरी किरण, इंजीनियर्स, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45062) अपर्णा काकरन, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45063) एकता सिंह, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45064) प्रवीन कौर, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45066) शिवानी जेरथ, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45067) सैयद हिना, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45070) रीता, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45073) कुलविन्दर कौर, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45074) अंकिता कोठारी, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45075) हरगुन कौर आनंद, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45076) जूली फिलिप, इंजीनियर्स, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45078) प्रियंका नेगी, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45084) माधवी शर्मा, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45087) स्फूर्ति कुलकर्णी, इंजीनियर्स, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45088) स्वाति एम, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45091) चारू कौशिक, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45095) रीमा डडवाल, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45097) देविका शर्मा, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45099) वैशाली देव, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45100) अर्पणा पी प्रभु, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45101) इन्दू, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45102) दीपा देसाई, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45103) मौर्य अनुराधा सुरेशकुमार, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45104) प्रीति सहरावत, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45105) दीप्ति रंजन, इंजीनियर्स, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45106) संध्या, ईएमई, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45108) परांशू गोसाई, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

(एसएस-45114) इति श्रीवास्तव, सिग्नल, 20 सितम्बर 2009, एसएससीडब्ल्यू 06 (टी), 20 अक्टूबर 2009/20 अक्टूबर 2011

प्रभात रॉस
उप निदेशक
एम एस 8सी

थल सेना विभाग

सं. 364, दिनांक 21 अगस्त 2012--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

पायनियर कोर

स्थायी सूबेदार [(जीडी) एण्ड क्लर्क (एसडी)]

नायब सूबेदार (जीडी) नारद महतो (जेसी-829454एक्स), 01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार (जीडी) परशुराम सिंह (जेसी-829456एच), 02 अप्रैल 2012*

नायब सूबेदार (जीडी) क्रिस्टोफर एक्का (जेसी-829457एल), 01 अप्रैल 2012

नायब सूबेदार (जीडी) सतीश कुमार (जेसी-829458एन), 01 अप्रैल 2012

नायब सूबेदार (जीडी) योगेंद्र सिंह (जेसी-829459डब्ल्यू), 04 अप्रैल 2012*

नायब सूबेदार (जीडी) अशोक कुमार (जेसी-829460एल), 01 अप्रैल 2012

नायब सूबेदार (जीडी) मोहन कठाट (जेसी-829461एन), 01 अप्रैल 2012

नायब सूबेदार (जीडी) अछर सिंह (जेसी-829462डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2012

नायब सूबेदार (जीडी) ब्रिच पाल सिंह (जेसी-829463वाई), 01 अप्रैल 2012

नायब सूबेदार (जीडी) कालू राम शर्मा (जेसी-829464एफ), 01 मई 2012

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) गिरंद सिंह (जेसी-829455ए), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) अनिल कुमार (जेसी-829467पी), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) गौतमा तिवारी (जेसी-829472ए), 01 अप्रैल 2012

* (वरिष्ठता 01 अप्रैल 2012 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना)

टी सी शर्मा
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 365, दिनांक 21 अगस्त 2012--राष्ट्रपति निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को थल सेना अनुदेश 11/एस/64 के अंतर्गत उनके नाम के आगे दी गई तिथियों से सेवा मुक्त करते हैं इन अधिकारियों को नियमित आरक्षण (श्रेणी एस) में उनकी सेवा मुक्त की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनकी आयु 40 वर्ष होने तक, दोनों में से जो भी पूर्व हो सम्मिलित कर लिया जाये :--

नियमित सेना

अल्प सेवा आयोग

(एसएस-38916वाई) एस ए रीसालदार, आर्टी, 04 सितम्बर 2008

(एसएस-38928एन) राकेश मोहन नायर, ईएमई, 20 दिसम्बर 2008

(एसएस-38988एच) ए के शर्मा, एससी, 11 मई 2008

(एसएस-39347एच) सौरभ शर्मा, इन्फैन्ट्री, 28 मई 2008

(एसएस-39410एम) एसएस हिरेमथ, इन्फैन्ट्री, 29 मई 2008

(एसएस-39428एच) इंद्रपोल सिंह, इन्फैन्ट्री, 29 सितम्बर 2008

(एसएस-39436एफ) एल नवनीथा बालाकृष्णन, इन्फैन्ट्री, 16 फरवरी 2008

(एसएस-39444ए) अशिश अचर्जी, एसी, 24 सितम्बर 2008

(एसएस-39453एफ) सुशील कुमार कुंदल, इन्फैन्ट्री, 15 नवम्बर 2008

(एसएस-39688एन) एम एल सिंह, इन्फैन्ट्री, 24 अगस्त 2008

(एसएस-39698एक्स) सौरभ विकाश, इन्फैन्ट्री, 18 अगस्त 2008

(एसएस-39792एफ) उमेश मेहता, आर्टी, 09 अप्रैल 2008

(एसएस-39795पी) करण सिंह बेन्स, मैक इन्फैन्ट्री, 29 अक्टूबर 2008

(एसएस-39822एन) गणेश दत्त गौड़, इन्फैन्ट्री, 25 अगस्त 2008

(एसएस-39858एम) नरेन्द्र सिंह चंदेल, इन्फैन्ट्री, 28 जून 2008

(एसएस-39874के) जयप्रकाश एस, एससी, 12 मई 2008

(एसएस-39937एफ) दिनेश, इन्फैन्ट्री, 21 सितम्बर 2008

(एसएस-39986के) तुषार जोहरी, सिग्नल्स, 28 नवम्बर 2008

(एसएस-39996एन) हेमन्त सिंह ठाकुर, आर्टी, 03 जून 2008

(एसएस-39997डब्ल्यू) समशेर सिंह पानु, आर्टी, 06 मई 2008

(एसएस-39999एफ) करण सिंह यादव, इन्फैन्ट्री, 02 जून 2008

(एसएस-40002एन) टी आर रंजीथ, इंटर, 04 जून 2008

(एसएस-40003डब्ल्यू) संदीप सांगवान, एसी, 03 जून 2008

(एसएस-40016एन) विश्वजीत दास, इन्फैन्ट्री, 05 अप्रैल 2008
 (एसएस-40040के) कामबन कवी, आर्टी, 04 जून 2008
 (एसएस-40086एम) इश्माईल सी, इंजीनियर्स, 18 मई 2008
 (एसएस-40116वाई) जे जे डोमिनीक, आर्टी, 14 अक्टूबर 2008
 (एसएस-40124एक्स) ए एच प्रधान, आर्टी, 21 मई 2008
 (एसएस-40125ए) उदय कामेश्वर श्रिवास, सिग्नल्स, 02 जून 2008
 (एसएस-40126एच) अनवर एच खान, इन्फैन्ट्री, 08 मार्च 2008
 (एसएस-40130एल) दिपक चंद्रा जोशी, इन्फैन्ट्री, 26 मई 2008
 (एसएस-40256एल) झाम्बरे कल्याण कीइंग्सटन यसुदास, इंजीनियर्स,
 04 अक्टूबर 2008
 (एसएस-40258डब्ल्यू) रिशी मोहन, सिग्नल्स, 01 नवम्बर 2009
 (एसएस-40264के) जी एस कंग, आर्टी, 04 अक्टूबर 2008
 (एसएस-40286एच) प्रवीन राज एस, आर्टी, 04 अक्टूबर 2008
 (एसएस-40306एल) पाटील सचीन बालासाहेब, इन्फैन्ट्री,
 04 अक्टूबर 2008
 (एसएस-40308डब्ल्यू) दीपक कुमार यादव, इन्फैन्ट्री, 04 अक्टूबर
 2008
 (एसएस-40318ए) आर धियागराजन, इन्फैन्ट्री, 06 सितम्बर 2008
 (एसएस-40321ए) अनुराग ग्रोवर, इन्फैन्ट्री, 02 दिसम्बर 2008
 (एसएस-40330एफ) संतोष कुमार संदीप, आर्टी, 20 अक्टूबर 2008
 (एसएस-40338एन) एम ए खान, मैक इन्फैन्ट्री, 19 अक्टूबर 2008
 (एसएस-40374वाई) चेतन चौहान, इन्फैन्ट्री, 04 अक्टूबर 2008
 (एसएस-40377एम) पराग अस्थाना, मैक इन्फैन्ट्री, 06 सितम्बर
 2008

(एसएस-40380एम) संकल्प जोशी, सिग्नल्स, 02 दिसम्बर 2008
 (एसएस-40398एच) रजनीश भारद्वाज, इन्फैन्ट्री, 04 अक्टूबर 2008
 (एसएस-40408एफ) शिजु थोमस, आर्टी, 04 अक्टूबर 2008
 (एसएस-40429एक्स) सचिन शर्मा, इन्फैन्ट्री, 04 अक्टूबर 2008
 (एसएस-40430एम) अमित पचौरि, इन्फैन्ट्री, 04 अक्टूबर 2008
 (एसएस-40439एफ) सानिल एम अक्षवीर, आर्टी, 07 नवम्बर 2008
 (एसएस-40444एम) अशोक मीनोन, इन्फैन्ट्री, 03 नवम्बर 2008
 (एसएस-40457के) दीपक वर्धन, मैक इन्फैन्ट्री, 03 दिसम्बर 2008
 (एसएस-40469वाई) अब्राहम बी चाको, आर्टी, 03 दिसम्बर 2009

जितेन्द्र ओहरी

कर्नल

कर्नल सेना सचिव 7

सेना शाखा

शुद्धि-पत्र

कप्तान से मेजर

सं. 366, दिनांक 22 अगस्त 2012--भारत के राजपत्र भाग 1
 अनुभाग 4 में दिनांक 24 मई 2008 को शीर्षक "नियमित सेना स्थायी
 कमीशन" एवं उप शीर्षक "कप्तान से मेजर" के अधीन प्रकाशित रक्षा
 मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के बदले : आईसी-61548 अंजुल बहुगुणा, इन्फैन्ट्री
 पढ़ा जाए : ----रिक्त----

प्रभात रॉस

उप निदेशक

एमएस-8सी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 8th September 2012

(FINANCE DIVISION)

No. 357, dated 16th August 2012—The President is pleased to appoint Priti Mohanty, IDAS (1977) as Financial Adviser (Defence Services) in the Ministry of Defence with effect from the forenoon of 02.07.2012.

T HENRY FRANKLIN
Dy Financial Adviser (Estt/MO)

ARMY BRANCH

No. 358, dated 16th August 2012—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned 97 (Ninety seven) Gentlemen Cadets of 10 + 2 TES-18 Course are granted Permanent Commission in the Army in the rank of Lt wef 10 Dec 2011 under the provision of AI 3/99.

(IC-76178K) Shanshah Ali, Sigs	(IC-76201M) Rajesh Upreti, Engrs
(IC-76179M) Pawan Gautam, Engrs	(IC-76202P) Rohit Singh, AC
(IC-76180F) Nitish Tyagi, Sigs	(IC-76203X) Vishnu Prasad Hota, Inf
(IC-76181K) Mohan Kumar, Engrs	(IC-76204A) Rupak Das, Arty
(IC-76182M) Sanjay Siwach, Engrs	(IC-76205H) Navneet Sharma, Sigs
(IC-76183P) Prashant Pathak, Engrs	(IC-76206L) Devdutt Deshpande, Engrs
(IC-76184X) Abhay Kumar Karn, Sigs	(IC-76207N) Shivam Negi, AC
(IC-76185A) Ankit Kumar, Sigs	(IC-76208W) Manjeet Kumar Singh, EME
(IC-76186H) Deepak Kumar Singh, Sigs	(IC-76209Y) R Rajeev, Inf
(IC-76187L) Ishan Dixit, Sigs	(IC-76210N) Abhijeet Singh, Inf
(IC-76188N) Babban Singh, EME	(IC-76211W) Harsh Chandel, AAD
(IC-76189W) Prashant Chaudhary, Engrs	(IC-76212Y) Jaiwant Singh Grewal, Engrs
(IC-76190L) Shanendra Singh, EME	(IC-76213F) Shekhar, AC
(IC-76191N) Sidharth Jatana, Sigs	(IC-76214K) Viplav Kumar Rai, EME
(IC-76192W) Manjit Singh Bains, EME	(IC-76215M) Suhas S Karne, Arty
(IC-76193Y) Harsh Kakran, Mech	(IC-76216P) Sumit Sharma, EME
(IC-76194F) Joginder Singh, Mech	(IC-76217X) Prashant Kumar Chand, Engrs
(IC-76195K) Anurag Shukla, AOC	(IC-76218A) Abhishek Singh Yadav, EME
(IC-76196M) Maneesh Bora, EME	(IC-76219H) Vikas Giri, EME
(IC-76197P) Narender Kumar, Sigs	(IC-76220X) Oinam Samson Singh, Sigs
(IC-76198X) Jaidip Dilip Patil, Engrs	(IC-76221A) Abhay Bhanu Pandit, Engrs
(IC-76199A) Mukesh Kumar, EME	(IC-76222H) Rahul Naudiyal, EME
(IC-76200K) Shuvayu Chaudhuri, Inf	(IC-76223L) Mritunjay Katoch, Inf
	(IC-76224N) Thokchom Chingthangsana Singh, ASC
	(IC-76225W) Anant Kumar, EME
	(IC-76226Y) Anup Kumar Jha, AC
	(IC-76227F) Rishabh Rawat, Sigs
	(IC-76228K) Vivek Singh Rathore, EME
	(IC-76229M) Shaswat, AC
	(IC-76230F) Rajani Kant Rai, EME
	(IC-76231K) Himanshu Baranwal, Engrs
	(IC-76232M) Wagh Bhupal Vasant, Engrs
	(IC-76233P) Ayaaz Ahmad Khan, Engrs
	(IC-76234X) Ashish Kumar Gupta, AAD
	(IC-76235A) Dakshya Kumar Kaushik, Inf
	(IC-76236H) Shailendra Kumar Yadav, Sigs
	(IC-76237L) Shivmangal Singh, EME

(IC-76238N) Abhinav Singh, Inf
 (IC-76239W) Shashank Shekhar, Engrs
 (IC-76240L) Ramesh Kumar, Arty
 (IC-76241N) Deepak Sarkar, EME
 (IC-76242W) Vineeth V S, Arty
 (IC-76243Y) Pankaj Kumar Chawla, Engrs
 (IC-76244F) Lokesh Kumar Sharma, EME
 (IC-76245K) Devender Singh, Engrs
 (IC-76246M) Shehbaz Deep Virk, Sigs
 (IC-76247P) Prashant Pasbola, Arty
 (IC-76248X) Amol Jadhav, Mech
 (IC-76249A) Ajay Lamba, EME
 (IC-76250P) Ankit Sharma, Sigs
 (IC-76251X) Alok Bisht, Arty
 (IC-76252A) Gaurav Dipak Kale, AAD
 (IC-76253H) Ankit Sharma, Sigs
 (IC-76254L) Narender Singh Koranga, Inf
 (IC-76255N) Ajay Dattatray Deshpande, Engrs
 (IC-76256W) Mrinal Bhatia, Sigs
 (IC-76257Y) Kamal Sain, AC
 (IC-76258F) Rohit Lingwal, Sigs
 (IC-76259K) Kannan M, EME
 (IC-76260Y) Prakash Babu, Sigs
 (IC-76261F) Ajin Jose, Sigs
 (IC-76262K) Chandan Singh, EME
 (IC-76263M) Prashant Kanwar, EME
 (IC-76264P) Karan Singh, Engrs
 (IC-76265X) Sahil Sharma, Sigs
 (IC-76266A) Ashwani Kumar Singh Yadav, Sigs
 (IC-76267H) Gourav Chakraborty, EME
 (IC-76268L) Conrad Mark D'souza, Inf
 (IC-76269N) Prabal Pratap Singh, ASC
 (IC-76270H) Mohit Kumar Bharti, Engrs
 (IC-76271L) Rishabh Shukla, Arty
 (IC-76272N) Ankith Srivastava, Mech
 (IC-76273W) Sumit Ranjan Das, Engrs
 (IC-76274Y) Abhinav Raturi, Engrs

The undermentioned one Gentleman Cadet of 110 TG Course whose GC number is prefixed by 'T' (denoting TGC) is granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 11 Dec 10 (F/N) under the terms and conditions of AI 105/61, as amended

T/6751 Gurpreet Singh (IC-75295H), AEC with the seniority below T/6608 Ripudaman Singh (IC-75294A), Engrs

The undermentioned one Gentleman Cadet of 111 TG Course whose GC number is prefixed by 'T' (denoting TGC) is granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 11 Jun 11 (F/N) under the terms and conditions of SAI 1/S/94, as amended. He is also granted two years ante-date seniority for pay and promotions wef 14 Jun 2009 under SAI 1/S/94, as amended for GC of TG Course

T/6884 Prateek Chakravarty (IC-75710Y), Sigs with the seniority below U/1032 L Prashant (IC-75709K), AAD

SHORT SERVICE COMMISSIN (ON PROBATION)

The undermentioned GC of 111 Technical Graduate Course (TGC) granted Short Service Commission (on probation) for the period of their training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against his name under the terms and conditions of SAI 1/S/94, as amended for the GC of TG Course :—

IMA No., Name SS No., Arm/Service & Date of SSC (OP)

T/6884 Prateek Chakravarty, 44692A, Sigs, 16 Aug 2010

The Arm/Service allotted to the GC is valid for the duration of his training only

NEERAJ KUMAR
 Maj
 AMS 8B

ARMY BRANCH

No. 359, dated 16th August 2012—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned 337 Gentlemen Cadets of 129 Regular Course (169 DE, 93 Ex NDA and 75 Ex ACC) are granted Permanent Commission in the Army in the rank of Lt wef 10 Dec 2011 except one GC N/42111 (IC No. 76001W) Bankim Katoch who was LMC and after becoming SIH1A1P1E1, he has been granted Permanent Commission wef 14 Dec 2011 (F/N), under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC)

(IC-75828A) Abhijeet Singh, AC
 (IC-75829H) Abhishek Chandra, Inf
 (IC-75830X) Amit Bijalwan, Inf
 (IC-75831A) Vishal Deep Singh, ASC
 (IC-75832H) Kamal Fulara, Inf
 (IC-75833L) Kothari Karan Kirti, Inf
 (IC-75834N) Nitesh Kumar, Engrs

(IC-75835W) Mahajan Abhijeet Chandrakant, Inf	(IC-75874P) Dev Kumar, Int
(IC-75836Y) Kishore Kumar Verma, Arty	(IC-75875X) Gurvinder Singh Kapoor, Inf
(IC-75837F) Raman Deep Singh, Mech	(IC-75876A) Kundan Kumar, Arty
(IC-75838K) Vineet Sangwan, Sigs	(IC-75877H) Vishal Singh, Arty
(IC-75839M) Shaunak Nivargi, Arty	(IC-75878L) Ashutosh Kumar, Inf
(IC-75840F) Raunaq Rajkhowa, Arty	(IC-75879N) Raman Kumar, AOC
(IC-75841K) Mithun Chatterjee, Inf	(IC-75880H) Amit Yadav, Arty
(IC-75842M) Suraj Parkash, AOC	(IC-75881L) Hemant Kanukollu, Inf
(IC-75843P) Ankush Rana, AC	(IC-75882N) Ravi Kumar Arya, Inf
(IC-75844X) Surendra Singh, Inf	(IC-75883W) Gaurav Choudhary, Mech
(IC-75845A) Mane Ganesh Rajaram, Arty	(IC-75884Y) Harish Majila, EME
(IC-75846H) Amar Kumar, AAD	(IC-75885F) Raj Kumar Thapa, ASC
(IC-75847L) Anand Prakash, EME	(IC-75886K) Sarwesh Kumar, Arty
(IC-75848N) Abhinav Prakash, Arty	(IC-75887M) Pranav Kumar Joshi, Engrs
(IC-75849W) Abhishek Chhikara, Inf	(IC-75888P) Jasvinder Singh Saini, EME
(IC-75850L) Ishfaq Rashid, Inf	(IC-75889X) Shiv Pratap Singh Pathania, Inf
(IC-75852W) Manmohan Singh Bisht, Engrs	(IC-75890M) Ankush Guleria, Inf
(IC-75853Y) Sabnis Kaushik Jay, Arty	(IC-75891P) Rajiv Kumar, Arty
(IC-75854F) Chander Shekhar Nathyal, Inf	(IC-75892X) Malay Tripathy, Int
(IC-75855K) Aravind A G, Inf	(IC-75893A) Kuldeep Singh Chhilar, Arty
(IC-75856M) S Sajeesh, Arty	(IC-75894H) Arko Kiran Debnath, Arty
(IC-75857P) Jayaraman C, Arty	(IC-75895L) Deepak Kumar, Inf
(IC-75858X) Sita Bahadur Ghale, Inf	(IC-75896N) Gholap Krishnant Chandrakant, Inf
(IC-75859A) Arjit Verma, Inf	(IC-75897W) Harish Chander Joshi, Arty
(IC-75860P) Sanjeev Kumar Parmar, AOC	(IC-75898Y) Sagar Prakash Pardeshi, AC
(IC-75861X) Mayank Solanki, Inf	(IC-75899F) Prashant Rai, Inf
(IC-75862A) Mahipal Dangi, Engrs	(IC-75901N) Heigrujam Hemjit Meetei, Arty
(IC-75863H) Deepak Kumar, Engrs	(IC-75902W) Pawan Thapa, Inf
(IC-75864L) Sumeet Bhardwaj, Inf	(IC-75903Y) Updesh Kumar, Arty
(IC-75865N) Pradip Shukla, Inf	(IC-75904F) Digvijay Thakur, Inf
(IC-75867Y) Kharak Chand Rajan, AVN	(IC-75905K) Devender Sharma, Inf
(IC-75868F) Nongmaithem Sanjitkumar Singh, Arty	(IC-75906M) Vinay Kumar Kushawaha, Inf
(IC-75869K) Vipin Kumar, Inf	(IC-75907P) Kamal Singh Bisht, Arty
(IC-75870Y) Jeetesh Kumar Singh, Arty	(IC-75908X) Tapan Kumar Tamang, Inf
(IC-75871F) Vipin Kumar, Inf	(IC-75909A) Prakhar Dhagat, Inf
(IC-75872K) Khare Rohit Ramesh, Arty	(IC-75910P) Aditya Singh, Engrs
(IC-75873M) S Mageshkumar, Inf	(IC-75911X) G Sudheer Kumar, Inf

(IC-75912A) Kuldeep Kumar Sharma, ASC	(IC-75951Y) Deepak Singh Raghuvanshi, Arty
(IC-75913H) Vikram Singh Gusain, ASC	(IC-75952F) Pravesh Thakur, Inf
(IC-75914L) Vinay Kumar, Inf	(IC-75953K) Nadiseti Ganesh, Arty
(IC-75915N) Saurav Raj, ASC	(IC-75954M) Nitish Chaudhary, Arty
(IC-75916W) Pankaj Kumar, Inf	(IC-75955P) Mohan Singh, Inf
(IC-75917Y) Hunar Jain, AAD	(IC-75956X) T Pushparaj, ASC
(IC-75918F) Rakesh Kumar Verma, Arty	(IC-759457A) Nishant Badiger, Inf
(IC-75919K) Abhinav Srivastava, Arty	(IC-75958H) Akshay Vikram Singh Mall, Inf
(IC-75920Y) Ajay Chandra, Sigs	(IC-75959L) Sunil Kumar D, Mech
(IC-75921F) Syed Imran Shah, AVN	(IC-75961H) Parveen Siwach, Inf
(IC-75922K) Abhishek Singh Gautam, Arty	(IC-75962L) Arpan Pradhan, Inf
(IC-75923M) Shah Mihir Jayesh, Inf	(IC-75963N) Shahmir Abidi, Inf
(IC-75924P) Arunoday Singh, Inf	(IC-75964W) Aakash Shrimali, AAD
(IC-75925X) Vinay P, AAD	(IC-75965Y) Parikshit Singh Rathore, Arty
(IC-75926A) Kulkarni Paresh Pralhad, Inf	(IC-75966F) Shaji K, Arty
(IC-75927H) Sourabh Rawat, Arty	(IC-75967K) Romi Singh, Inf
(IC-75928L) Saurabh Gusain, AOC	(IC-75968M) Vipin Kumar, Inf
(IC-75929N) Rohit Kumar Singh, Inf	(IC-75969P) Suresh Singh Mehra, Engrs
(IC-75930H) Rajdeep Singh, AOC	(IC-75970K) Pritam Singh Rawat, Inf
(IC-75932N) Kaushal Chand, ASC	(IC-75971M) Vikas Boora, Int
(IC-75933W) Nikhil Vikram, AVN	(IC-75972P) Ankit Sirohi, Inf
(IC-75934Y) J Vijaya Kumar, Inf	(IC-75973X) Ashish Dev Bhardwaj, Sigs
(IC-75936K) Rajesh Kumar Thakur, Inf	(IC-75974A) Dhruv Gupta, ASC
(IC-75937M) Kishor Dhanaji Ghorpade, AOC	(IC-75975H) Bhuwan Chandra Joshi, Arty
(IC-75938P) Vivek Singh Baghel, Inf	(IC-75976L) Suhel Singh Gill, Inf
(IC-75939X) Sanjay Kumar Gangwar, Inf	(IC-75977N) Suyash Srivasiava, Inf
(IC-75940M) Prithviraj Singh Rawal, AC	(IC-75978W) Tarun Goel, Arty
(IC-75941P) Karmvir Singh, EME	(IC-75979Y) Arun Samant, EME
(IC-75942X) Gagandeep Singh Sidhu, ASC	(IC-75980N) Kul Bhushan Singh, Inf
(IC-75943A) Aayush Chauhan, Sigs	(IC-75981W) Satyasiba Ranasingh, Arty
(IC-75944H) Prakampan Kumar, Arty	(IC-75982Y) Kuldeep, EME
(IC-75945L) Gaurav Kumar Chaudhary, Arty	(IC-75983F) Ishat Singh, Arty
(IC-75946N) Gaurav Kukreti, Engrs	(IC-75984K) Bhupinder Bhola, AC
(IC-75947W) Saket Puri, Arty	(IC-75985M) Ravinder Pun, Inf
(IC-75948Y) Thokchom Sanaton Singh, Arty	(IC-75986P) Gopikrishna Sriramineni, AVN
(IC-75949F) Suman Deb, Inf	(IC-75987X) Pokala Ravindra, Arty
(IC-75950W) Dhiraj Pandey, Inf	(IC-75988A) Pritam Gajanan Kamble, Inf

(IC-75989H) Aditya Rana, Inf	(IC-76027L) Amritpal Singh Dhillon, AVN
(IC-75990X) S Hardeep Singh Mehta, Inf	(IC-76028N) Abhijit Singh, Arty
(IC-75991A) Abhinav Iyer, Inf	(IC-76029W) Bipan Singh Negi, Inf
(IC-75992H) Santosh Kumar Yadav, Arty	(IC-76030L) Vivek Kamboj, Inf
(IC-75993L) Puneet Hooda, Inf	(IC-76031N) Naresh Kumar, Sigs
(IC-75994N) Neeraj Rattan, Inf	(IC-76032W) Jatheesh Kumar S, Arty
(IC-75995W) Kalkundri Manish Narayan, Arty	(IC-76033Y) Ritesh Uniyal, ASC
(IC-75997F) Suraj Sadasivan, Engrs	(IC-76034F) Jitesh Kumar, Arty
(IC-75998K) Kailash Chandra Bachkheti, Sigs	(IC-76035K) Akhil Dev Kaushal, Engrs
(IC-75999M) Vijay Prakash Singh, Inf	(IC-76036M) Saravanan R, Inf
(IC-76000N) Raul Pathak, AC	(IC-76037P) Shubhritraj Singh, Inf
(IC-76001W) Bankim Katoch, ASC	(IC-76038X) Akash Kumar, Arty
(IC-76002Y) Sapan Kumar, AAD	(IC-76039A) Arun Balachandran, Arty
(IC-76003F) Gaurav Saini, Inf	(IC-76040P) Neeraj Thapa, Inf
(IC-76004K) Rommel Vats, Mech	(IC-76041X) Rahul Kumar, Arty
(IC-76005M) Loitongbam Johnson, Arty	(IC-76042A) Rakesh Kumar, AC
(IC-76006P) Nirvair Singh Gill, Inf	(IC-76043H) Subodh Rathore, Inf
(IC-76007X) Balaji S, Inf	(IC-76044L) Ashish Kumar, Inf
(IC-76008A) Avinash Kumar, Arty	(IC-76045N) Vishwanath Singh Rathore, Inf
(IC-76009H) Pranav Seth, Arty	(IC-76046W) Sudhanshu Sachet, Arty
(IC-76010X) Vasireddy Sachin Shankar, Int	(IC-76047Y) Pratap Singh Pundir, ASC
(IC-76011A) Pebam Rubikishor Singh, Inf	(IC-76048F) Kaushal Kishor Yadav, Engrs
(IC-76012H) Gagandeep Singh, Sigs	(IC-76049K) Sourabh Dhyani, Arty
(IC-76013L) Sumit Sehgal, Inf	(IC-76050Y) Amit Kumar Ojha, Inf
(IC-76014N) Mukul Katoch, Arty	(IC-76051F) T Raghavendra Sharma, EME
(IC-76015W) Prakash Kumar, ASC	(IC-76052K) Vijay Verma, Inf
(IC-76016Y) Kousik Biswas, AOC	(IC-76053M) Ashok Singh, AOC
(IC-76017F) Joseph Paul E, Inf	(IC-76054P) Kunal Malik, ASC
(IC-76018K) Arun Kumar KV, Arty	(IC-76055X) Mandeep Singh, Arty
(IC-76019M) Satish Malik, AOC	(IC-76056A) Saurav Kumar, Sigs
(IC-76020F) Rohit Shukla, Inf	(IC-76058L) Vishwas Subba, Inf
(IC-76021K) Amandeep Singh Bhinder, AAD	(IC-76059N) Rahul Singh, Arty
(IC-76022M) Vineet Kumar Meena, EME	(IC-76060H) Ashish Singh, Inf
(IC-76023P) Gopinath U, ASC	(IC-76061L) Vinod Kumar B, Inf
(IC-76024X) Jaysheel Jayant Pendse, Inf	(IC-76062N) Harish Singh Kundwal, Inf
(IC-76025A) Navjot Thakur, AC	(IC-76063W) Dibya Lahiri, Inf
(IC-76026H) Himanshu Goyal, Inf	(IC-76064Y) Dwarka Prasad Singh, ASC

(IC-76065F) Soyuz Bahadur KC, Inf	(IC-76103M) Krishnan Devanga, Inf
(IC-76066K) S Raja, Arty	(IC-76104P) Rahul Bhatt, Inf
(IC-76067M) Avinash Kumar, Inf	(IC-76105X) Sanu K Mon, Engrs
(IC-76068P) Khim Singh, Inf	(IC-76106A) Nitin C Nambiar, Inf
(IC-76069X) Abhinav Moudgil, Inf	(IC-76107H) Chaudhari Mukeshbhai Dalsangbhai, Arty
(IC-76070M) Vikram Singh, AOC	(IC-76108L) Ravinder Singh, Inf
(IC-76071P) Dharamvir, Inf	(IC-76109N) Mohit Kumar Pargaen, Mech
(IC-76072X) Mukesh Kumar, Int	(IC-76110H) Ravi Kant, Inf
(IC-76073A) Anjishnu Goswami, AVN	(IC-76111L) Abhishek, Inf
(IC-76074H) Ritesh Kainthola, AAD	(IC-76112N) Parveen Dhyani, Inf
(IC-76075L) Aditya Kumar Anand, Inf	(IC-76114Y) Sameer Singh, Arty
(IC-76076N) Shashwat Rakesh, AC	(IC-76115F) Mayank Siwach, Inf
(IC-76077W) Devendra Singh Shekhawat, Inf	(IC-76116K) Abeer Saxena, Arty
(IC-76078Y) Deepak Singh, Engrs	(IC-76117M) Sahil Badyal, Inf
(IC-76079F) Abhinandan Sharma, Arty	(IC-76118P) Dhruva Gaur, AC
(IC-76080W) Ankit Maini, Inf	(IC-76119X) Wagh Parshuram, Arty
(IC-76081Y) Balraj Singh, Inf	(IC-76120M) Sunny Raaj, Inf
(IC-76082F) Avtar Singh, Arty	(IC-76121P) Ashwin Surej, Arty
(IC-76083K) Pushkar Pandey, Arty	(IC-76122X) Anupam Yadav, AOC
(IC-76084M) Abhinav Singh, AAD	(IC-76123A) Lucky Kumar, Arty
(IC-76085P) Meera Mohan Kishore, Arty	(IC-76124H) Ankur Kumar Mishra, Inf
(IC-76086X) Tarun Shekhar Pandey, ASC	(IC-76125L) Pranav Kalia, Inf
(IC-76087A) ML Thangarajan, Engrs	(IC-76126N) Amit Kumar Tiwari, Inf
(IC-76088H) Anshuman Joshi, Inf	(IC-76127W) Padamvir Singh, Arty
(IC-76089L) Palla Hari Hara Prasant, Arty	(IC-76128Y) Bhanu Agarwal, Int
(IC-76090A) Nirjhar N Yadav, Sigs	(IC-76129M) Yaikhomba Chingangbam, Inf
(IC-76092L) Shakti Singh Umrao, AOC	(IC-76130W) Ashok Datt, Inf
(IC-76093N) Sunil Kumar Pothal, AOC	(IC-76131Y) Saumya Vardhan Tripathi, Mech
(IC-76094W) Bhaskar Mahan Cairae, AC	(IC-76132F) Manoj Kumar Panwar, Arty
(IC-76095Y) Jitendra Dixit, Inf	(IC-76133K) Yudhvir Singh Slathia, Engrs
(IC-76096F) Akhilesh Kumar Rai, Arty	(IC-76134M) Anupam Atri, Arty
(IC-76097K) Gaurav Gupta, Arty	(IC-76135P) Yashwant Singh, Engrs
(IC-76098M) Ankit Agarwal, Arty	(IC-76136X) Sagar Sharma, Inf
(IC-76099P) Arvind Bamel, EME	(IC-76137A) Pranshu Singh, Inf
(IC-76100Y) Vishnu Jayaraj, AVN	(IC-76138H) Shrey. Mamgain, Inf
(IC-76101F) Chandra Bhushan Singh, Arty	(IC-76139L) Nitish Kumar Singh, Arty
	(IC-76140A) P Praveen, EME
	(IC-76142L) Rathilash Kumar, AAD

(IC-76143N) Karan Sahgal, ASC
 (IC-76144W) Manish Chhetri, Arty
 (IC-76145Y) Anish Kumar Sharma, Arty
 (IC-76146F) Sukanta Sanyal, ASC
 (IC-76147K) Varun Krishnakumar, Arty
 (IC-76148M) Anchal Singh Gour, Inf
 (IC-76149P) Sharma Akash Shyam, Sigs
 (IC-76150K) Ashfaq Khan, Arty
 (IC-76151M) Shubham Chaudhary, Arty
 (IC-76152P) Sharad Choudhary, Arty
 (IC-76153X) Madhav Moorthy, AC
 (IC-76154A) Anurag Singh Chauhan, Arty
 (IC-76155H) Rakesh Singh, Inf
 (IC-76156L) Jeethu Vijayan, Engrs
 (IC-76157N) Rahul Sharma, AAD
 (IC-76158W) Juganta Kangkan Mohan Laskar, ASC
 (IC-76160N) Amit Kumar Sharma, Mech
 (IC-76161W) Vinit Mishra, Arty
 (IC-76162Y) Akash Chouhan, EME
 (IC-76163F) Benjoy PS, Arty
 (IC-76164K) Shekhar Gupta, Inf
 (IC-76165M) Nikhil A, Inf
 (IC-76166P) Arun Sarath S, Inf
 (IC-76167X) Ali M Raza, AC
 (IC-76168A) Kunal Behl, AOC
 (IC-76169H) Rahul Rishi, Inf
 (IC-76170X) Anurag Sharma, Arty
 (IC-76171A) Mohammad Iliyas Kathat, Inf
 (IC-76172H) Ashvendra Singh Raghav, Inf
 (IC-76173L) Kevin S Dennis, Engrs
 (IC-76174N) Thomas Teffy Joseph, Arty
 (IC-76175W) Abhishek Kumar, Inf
 (IC-76176Y) Prosenjit Mitra, Inf
 (IC-76177F) Anirudh Mangotra, Inf

SHORT SERVICE COMMISSISON

To be Lt

The undermentioned four officers of SSC (Tech-34 Course was granted Short Service Commission (on probation) in the rank of Lt under the term and conditions of AI 1/93, as amended, read in conjunction with GoI Letter No. B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921D(AG) dt. 20 Jul 2006 for SSCOs (Men-Tech). Subsequently, on successful of training, their Short Service Commission on probation has been confirmed for a period of 10 years wef 19 Mar 2011. They have also been granted two years ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 22 Mar 2009 under the provisions of SAI 1/S/94 as amended:—

Janki Sharan Singh (SS-44494P), Engrs with the seniority below Abhineet Sikri (SS-44493M) Sigs, Servejeet Singh (SS-44522W), EME with the seniority below Vineet G Mallya (SS-44521N), Inf, Rakesh Raut (SS-44532A), Inf with the seniority below Moinuddin Khan (SS-44531X), Inf and Ritwick Paul (SS-44552N), Sigs with the seniority below Surendar S (SS-44551L), Arty whose names have been published in the Gazette of India dated 31 Dec 2011

The undermentioned five officers of SSC (NT)-90 Course have completed their Short Service Commission (on probation) for six months commencing from 18 Sep 2010. They are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant for a period of 10 years wef 18 Sep 2010 under the provisions of SAI 1/S/98, as amended, read in conjunction with GoI Letter No B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 2006:—

Jagadish Reddy Sangu (SS-44091P), Inf and Manu Tanwar (SS-44092X), Arty with the seniority below Jagdeep Singh Manhas (SS-44090M), Inf, Ravishankar H N (SS-44172P), Engr with the seniority below Pankaj Kumar (SS-44171M), Arty, Atul Gupta (SS-44194N), JAG with the seniority below Vikas Kumar (SS-44193L), Inf, Rajiv Bawa (SS-44201Y), AC with the seniority below Nitin Mathew (SS-44200W), Inf whose names have been published in the Gazette of India dated 18 Jun 2011

RAHUL SANGWAN

Lt Col

AMS-8B

ARMY BRANCH

No. 360, dated 17 August 2012—The President is pleased to make the following appointments under the provision of SAI 3/S/70 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The under mentioned Short Service Commissioned Officer has been granted Permanent Commission in the rank of

Lt wef 17 Mar 2012, on relinquishing his Short Service Commission wef 17 Mar 2012 :—

(IC-73206A) (SS-42429W) Pawan Shah, Inf

The dates to be considered in respect of above mentioned officer in regular commission will be as follows :—

Date for increments of pay — 17 Mar 2007

Date of seniority for promotion — 17 Oct 2007

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The undermentioned Short Service Commissioned Officer has been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 16 Sep 2011, on relinquishing his Short Service Commission wef 16 Sep 2011 :—

(IC-73055M) (SS-42194P) Abhimanyu Singh Siddhu, Inf

The dates to be considered in respect of above mentioned officer in regular commission will be as follows :—

Date for increments of pay — 16 Sep 2006

Date of seniority for promotion — 16 Apr 2007

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commission Officer granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission

The President is pleased to make the following appointments under the provisions of SAI 7/S/66 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 17 Mar 2012, on relinquishing their Short Service Commission wef 17 March 2012.

(IC-73162N) (SS-42381N) Jitendra Singh Rathore, Sigs

(IC-73166K) (SS-42389A) Pradeep Kumar, EME

(IC-73167M) (SS-42390P) Tejbir Singh Virk, EME

(IC-73168P) (SS-42391X) Vualnam Jamson Paite, Engrs

(IC-73169X) (SS-42392A) Akhil Singh Charak, Engrs

(IC-73170M) (SS-42393H) Dawande Abhishek Pramod, Engrs

(IC-73172X) (SS-42395N) Anant Ramesh Chari, Engrs

(IC-73173A) (SS-42396W) Rakesh Sharma, EME

(IC-73175L) (SS-42399K) Abhishek Ranjan, Engrs

(IC-73176N) (SS-42400N) Kamat Abhishek Vasant, Sigs

(IC-73177W) (SS-42402Y) Amit Grewal, Sigs

(IC-73178Y) (SS-42404K) Manmohan Singh, EME

(IC-73179F) (SS-42405M) Amit Kumar Kadyan, EME

(IC-73180W) (SS-42406P) Sheikh Azhar Shanaz, Engrs

(IC-73184M) (SS-42410X) Parvesh Kumar Khyalia, Engrs

The dates to be considered in respect of above mentioned officers in regular commission will be as follows :—

Date for increments of pay — 20 Mar 2005

Date of seniority for promotion — 20 Apr 2005

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The President is pleased to make the following appointments under the provision of SAI 3/S/70 (as amended) and SAI 7/S/66 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The under mentioned WSES(O) has been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 17 Mar 2012, on relinquishing her WSES(O) Commission wef 17 Mar 2012 :—

(WS-01317F) (IC-73187A) Navdeep Kaur, AEC

The dates to be considered in respect of above mentioned officer in regular commission will be as follows :—

Date for increments of pay — 17 Mar 2007

Date of seniority for promotion — 17 Sep 2007

The inter-se-seniority vis-a-vis those officers commissioned on the same date and granted Permanent Commission with same seniority for promotion, will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of commission to WSES(O)s/SSCOs

JEETENDRA OHRI

Col

MS-7

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANIZATION

No. 361, dated 17th August 2012—The President is pleased to make the following appointments :—

The undermentioned individual(s) to be temporary Scientist(s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research and

Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- (Pay Band-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- :—

(2009AB1637) Ashok Kumar, ADE, Bangalore, 01 Dec 2009

(2010AB1188) Asif Rizwan, ADE, Bangalore, 28 Oct 2010

(2009AB1594) Sidhant Raj, ASL, Hyderabad, 01 Dec 2009

(2009AB1399) B Padma, ASL, Hyderabad, 18 Jun 2009

(2009AB1005) Sanjay Kumar Jaiswal, CAIR, Bangalore, 03 June 2009

(2011AB1002) Kethavath Rajkumar, CAIR, Bangalore, 03 Jan 2011

(2010AB1128) Pradeep Kumar KP, CAIR, Bangalore, 19 May 2010

(2009AB1129) Omkar Kothekar, DLRL, Hyderabad, 03 Jun 2009

(2009AB1379) Krushna Kumbhar, DMRL, Hyderabad, 03 Jun 2009

(2009AB1644) Akula Suresh, DRDL/ANSP, Hyderabad, 01 Dec 2009

(2009AB1633) Arshad Iqbal, GTRE, Bangalore, 01 Dec 2009

(2010AB1213) S Ramachandra, GTRE, Bangalore, 31 Dec 2010

(2010AB1165) Kattepogu Jayaprakash, GTRE, Bangalore, 19 May 2010

(2009AB1661) Sunil Kumar Singh, HEMRL, Pune, 01 Dec 2009

(2009AB1636) Manoj Kumar Kuldeep, HEMRL, Pune, 01 Dec 2009

(2009AB1380) R Mahesh Babu, NMRL, Ambernath, 03 Jul 2009

(2010AB1114) Riya Joseph, NPOL, Kochi, 19 May 2010

(2008AB1606) S Saravanan, NPOL, Kochi, 03 Dec 2008

(2010AB1105) Cheepurupalli CH Naidu, NSTL, Vishakhapatnam, 19 May 2010

(2009AB1242) Karthik A, RCI, Hyderabad, 03 Jun 2009

(2009AB1017) Prabhanjan Kumar, SPIC, Delhi, 08 Jun 2009

(2009AB1245) Pankaj Saini, TBRL, Chandigarh, 03 Jun 2009

(2009AB1609) Sunil Kumar, VRDE, Ahmednagar, 01 Dec 2009

SMITA AHUJA
Dy Dir/Pers (S-1)

ARMY BRANCH

No. 362, dated 17th August 2012—The President is pleased to make the following promotions. :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Subs Col (By Selection)

(IC-52351) Lt Col BS Bhadauria, AC, 31 Dec 2010 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-52453) Lt Col R Bakshi, AC, 31 Dec 2010 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-54966) Lt Col VVS Kanwar, AC, 31 Dec 2010 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55008) Lt Col B Kuncheria, AC, 01 Mar 2011 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-52724) Lt Col A Kalia, AC, 01 Apr 2011 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-52725) Lt Col D Sheoran, AC, 01 Apr 2011 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-52727) Lt Col MA Shaik, AC, 31 Dec 2010 AC, but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-52762) Lt Col A Awasthi, AC, 31 Dec 2010 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-52795) Lt Col G Sharma, AC, 31 Dec 2010 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-52798) Lt Col Gopal Kapoor, AC, 01 Apr 2011 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-52861) Lt Col MS Prakash, AC, 01 Jul 2011 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-52969) Lt Col AS Luthra, AC, 01 Sep 2011 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53036) Lt Col VS Godhara, AC, 31 Dec 2010 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53122) Lt Col A Sharma, AC, 01 Mar 2011 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53123) Lt Col R Teotia, AC, 01 Feb 2011 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53132) Lt Col HM Preenja, AC, 31 Dec 2010 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53237) Lt Col T K Singh, AC, 01 Oct 2011 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53274) Lt Col Gagan Singh, AC, 31 Dec 2010 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53329) Lt Col S Hussain, AC, 01 Jun 2011 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53378) Lt Col M Trivedi, AC, 01 May 2011 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53426) Lt Col KK Singh, AC, 21 Dec 2010 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55212) Lt Col NR Pandey, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55236) Lt Col S Sardana, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55238) Lt Col M Ramkishan, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55249) Lt Col A Sharma, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55283) Lt Col Ranjeet Singh, Arty, 01 Mar 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53525) Lt Col DKR Gautam, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53534) Lt Col Shukla M, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53536) Lt Col Asthana A, Arty, 01 May 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53537) Lt Col Agarwal V, Arty, 31 Dec 2010 subs date as per insitu promotion

(IC-53539) Lt Col Gill R, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53542) Lt Col Devendra Pandey, Arty, 10 May 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53554) Lt Col Sharma MK, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53560) Lt Col Rohit Jha, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53570) Lt Col Verma DS, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53574) Lt Col Tiwari DK, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53589) Lt Col Bhatia N, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53593) Lt Col Dahiya AK, Arty, 01 May 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53598) Lt Col Ravinder Singh, Arty, 01 Jun 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53625) Lt Col Kumar BS, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53636) Lt Col Agnihotri R, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53645) Lt Col Sheikh S, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53646) Lt Col Mukharjee S, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53661) Lt Col Hussain SPA, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53668) Lt Col Rajguru JJ, Arty, 21 Jul 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53676) Lt Col Bhatia M, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53692) Lt Col Barbare AG, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53694) Lt Col Raj A, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53696) Lt Col Singh N, Arty, 05 Mar 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53704) Lt Col Kamath V V, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53714) Lt Col Sunila, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53715) Lt Col Dadhwal RS, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53724) Lt Col Kumar R, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53736) Lt Col Singh AK, Arty, 15 Oct 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53741) Lt Col Beniwal P, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53746) Lt Col Kumar B, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53756) Lt Col Yadav V, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53765) Lt Col Rajmannar MA, Arty, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53789) Lt Col Harihar Makm, Arty, 20 Aug 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53792) Lt Col Tripathi A, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53793) Lt Col Batra Y, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53794) Lt Col Kar K, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53809) Lt Col Jasrotia RS, Arty, 15 Mar 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53814) Lt Col Dhawan R, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53823) Lt Col Singh AK, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53831) Lt Col Katiyar S, Arty, 15 May 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53847) Lt Col Sharma JM, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55363) Lt Col R Arora, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55386) Lt Col AB Shende, Arty, 01 Mar 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53927) Lt Col RK Thakur, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53932) Lt Col A Nagyal, Arty, 01 Apr 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53933) Lt Col Nahu Khan, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53935) Lt Col BS Jastiria, Arty, 17 Apr 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53938) Lt Col RR Mishra, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53961) Lt Col S Tiwari, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53965) Lt Col AK Mundhra, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53968) Lt Col N Awasthi, Arty, 01 May 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53974) Lt Col S Ahuja, Arty, 01 Mar 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53976) Lt Col NS Bhadauria, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53989) Lt Col R Kushwaha, Arty, 01 Mar 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54005) Lt Col DS Sayana, Arty, 25 Mar 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54013) Lt Col R Subramanian, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54015) Lt Col R Pandey, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54037) Lt Col MP Uday, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54047) Lt Col VM Gollakota, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54066) Lt Col A Mishra, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54075) Lt Col P Mishra, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54092) Lt Col HK Sah, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54093) Lt Col Y Sharma, Arty, 15 May 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54099) Lt Col MK Singh, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54121) Lt Col CS Sharma, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54158) Lt Col S Khasnavis, Arty, 05 Mar 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54172) Lt Col A Srivastava, Arty, 15 Nov 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54184) Lt Col M Kumar, Arty, 01 Apr 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54197) Lt Col RN Tewari, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54198) Lt Col M Rohatgi, Arty, 15 May 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54231) Lt Col DK Bose, Arty, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54759) Lt Col VD Kane, AAD, 01 Jan 2011 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-51939) Lt Col Ram Naresh, AAD, 01 Jan 2011 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-51984) Lt Col Vikas Khanna, AAD, 01 Feb 2011 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-51952) Lt Col R Dadhwal, Avn, 31 Dec 2010 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-51980) Lt Col Satyavir Shookan, Avn, 31 Dec 2010 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-51018) Lt Col US Rathore, Avn, 31 Dec 2010 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-52360) Lt Col Saurav Schimer, Avn, 31 Dec 2010 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-52416) Lt Col S Vadhera, Avn, 31 Dec 2010 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-52835) Lt Col MS Bains, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53160) Lt Col Ashish Singh, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53250) Lt Col NR Singh, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-52882) Lt Col Vikram Dubey, Inf, 09 Dec 2011 but seniority wef 31 Dec 2010

(IC-55143) Lt Col PJ Singh, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55217) Lt Col Aditya Negi, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55227) Lt Col Anil Kumar, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55230) Lt Col LS Mahadevan, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55231) Lt Col Gurbir Singh, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55235) Lt Col CS Vardhan, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55244) Lt Col DS Thapa, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55246) Lt Col Prashant Kandpal, Inf, 01 Apr 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55247) Lt Col Vineet Sharma, Inf, 08 Jun 2011 but seniority wef 31 Dec 2010

(IC-55259) Lt Col Rakesh Kumar, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55261) Lt Col Sunil Rana, Inf, 01 Mar 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55262) Lt Col Kulbir Singh, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53511) Lt Col MC Tamang, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53524) Lt Col HPP Singh, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53526) Lt Col KK Sunil, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53527) Lt Col Rishi Sharma, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53528) Lt Col Yogesh KR Gautam, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53529) Lt Col Manoj KR Ruria, Inf, 21 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53530) Lt Col SS Dhaliwal, Inf, 01 Jun 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53531) Lt Col Hitesh Duggal, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53546) Lt Col VP Singh, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53548) Lt Col VS Negi, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53551) Lt Col Vikram Mehta, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53552) Lt Col Kartar Singh, Inf, 22 Jul 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53553) Lt Col Tapas KR Mishra, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53562) Lt Col Sandeep Verma, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53563) Lt Col Padam Dev Thakur, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53569) Lt Col SA Shinde, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53575) Lt Col Munish Sharma, Inf, 01 Feb 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53576) Lt Col Balraj Gurung, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53579) Lt Col Anuj Lal Maini, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53580) Lt Col Prashant Pande, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53582) Lt Col CS Pathania, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53591) Lt Col S Sokinda, Inf, 01 Mar 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53595) Lt Col Mohit Saxena, Inf, 01 Mar 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53596) Lt Col Deepak Sharma, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53601) Lt Col YS Sekhon, Inf, 09 May 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53604) Lt Col Pankaj Dhyani, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53613) Lt Col Manoj Sharma, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53620) Lt Col AD Pitre, Inf, 12 Jul 2011 but seniority wef 31 Dec 2010

(IC-53622) Lt Col Aditya KR Mishra, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53623) Lt Col AS Pundir, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53634) Lt Col Osiris Das, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53638) Lt Col Ravi Chander, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53639) Lt Col PS Rana, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53643) Lt Col HU Marathe, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53652) Lt Col Arvind KR Dimri, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53657) Lt Col NA Pagulwar, Inf, 01 Apr 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53664) Lt Col Sanjeet Singh Negi, Inf, 01 Mar 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53670) Lt Col NV Nath, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53677) Lt Col MM Deshpande, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53693) Lt Col Ananjai Singh, Inf, 01 Mar 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53703) Lt Col Anuj Jain, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53709) Lt Col NK Chakravarty, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53711) Lt Col Y Vijaya Kumar, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53721) Lt Col Jaideep Chanda, Inf, 01 May 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53723) Lt Col Raman Sharma, Inf, 01 Feb 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53727) Lt Col Deepak KR Pati, Inf, 01 Apr 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53731) Lt Col Prashant KR, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53733) Lt Col Sanjay Sinha, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53743) Lt Col KK Mishra, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53753) Lt Col Samir Chaudhary, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53778) Lt Col Gunpal Singh, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53782) Lt Col SP Yadav, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53810) Lt Col Mayank Vaid, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53818) Lt Col James Thomas, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53832) Lt Col Manish Sharma, Inf, 04 Jul 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53849) Lt Col Avanish Singhal, Inf, 01 Apr 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53850) Lt Col KJ Singh, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54764) Lt Col SS Shahi, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55340) Lt Col Lalit Sharma, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55346) Lt Col Suresh Sindhu, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55348) Lt Col Pradeep KR Mehta, Inf, 01 Mar 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55356) Lt Col Rajesh Yadav, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55361) Lt Col MMS Manhas, Inf, 01 Jun 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55364) Lt Col MC Aiyappa, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55365) Lt Col Vijay KR Verma, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55408) Lt Col G Athmaram, Inf, 01 Apr 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53920) Lt Col Kapil Rana, Inf, 01 Apr 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53924) Lt Col Alok Dash, Inf, 01 Feb 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53926) Lt Col Aman Deep Malhi, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53928) Lt Col Rahul Gupta, Inf, 01 Feb 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53930) Lt Col Veeresh Thapar, Inf, 24 Apr 2011 but seniority wef 31 Dec 2010

(IC-53939) Lt Col H Kataria, Inf, 01 Feb 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53949) Lt Col Siddhartha Sen, Inf, 01 Mar 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53952) Lt Col Ritesh Bahl, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53975) Lt Col S Chakraborty, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53984) Lt Col Asim KR Pandey, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53993) Lt Col KG Krishnan, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54002) Lt Col KJ Singh, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54003) Lt Col NN Bendigeri, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54007) Lt Col R Khosla, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54016) Lt Col Sukhdeep Singh, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54023) Lt Col Sanjiv Mehrotra, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54024) Lt Col Sanjeev Saroch, Inf, 01 Feb 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54026) Lt Col H Praveen, Inf, 12 May 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54032) Lt Col Atul Rajput, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54041) Lt Col Suresh Bhaik, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54044) Lt Col Rajneesh Singh, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54048) Lt Col NK Bhagasra, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54049) Lt Col Anuj Upadhyay, Inf, 01 Jul 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54050) Lt Col D Rathore, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54056) Lt Col Rajesh Bisht, Inf, 01 Feb 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54061) Lt Col Aman Anand, Inf, 01 Mar 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54069) Lt Col Somesh Jaswal, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54071) Lt Col AA Bhambere, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54082) Lt Col Vikram Singh Guleria, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54085) Lt Col YS Sajwan, Inf, 04 Jul 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54098) Lt Col S Ramakrishna Inf, 14 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010

(IC-54112) Lt Col PK Singh, Inf, 01 Feb 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54114) Lt Col RB Mukkundi, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54117) Lt Col Vishal Mediratta, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54118) Lt Col Shashank Verma Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54129) Lt Col V Shinde, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54139) Lt Col S Vasudeva, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54140) Lt Col Herjinder Singh, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54142) Lt Col S Ashok, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54160) Lt Col Nand KR K, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54165) Lt Col Navneet Bakshi, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54167) Lt Col Rajesh Singh Thakur, Inf, 01 Feb 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54168) Lt Col KS Tulsi, Inf, 01 Apr 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54170) Lt Col Pankaj Verma, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54171) Lt Col DK Nayak, Inf, 01 Mar 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54177) Lt Col Deepak KR, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54190) Lt Col Swarn Singh Inf, 01 Feb 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54199) Lt Col AP Agarwal, Inf, 01 Jan 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54209) Lt Col Krishnendu Das, Inf, 15 Feb 2011 but seniority wef 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53512) Lt Col K Anand, Guards, 31 Dec 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-52380) Lt Col Vikas KR, Mech Inf, 31 Dec 2010 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-52730) Lt Col Shehzada Kholi, Mech Inf, 31 Dec 2010 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-52732) Lt Col Narendra Singh, Mech Inf, 01 Feb 2011 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-52780) Lt Col AS Rawat, Mech Inf, 31 Dec 2010 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-55140) Lt Col Shantanu Goel, Mech Inf, 31 Dec 2010 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53120) Lt Col US Rathore, Mech Inf, 31 Dec 2010 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-53316) Lt Col PS Bath, Mech Inf, 05 Feb 2011 but seniority wef 01 Jan 2010, subs date as per insitu promotion

(IC-54746) Lt Col PK Singh, Engrs, 15 Aug 2011 but seniority wef 01 Jun 2009

(IC-55321) Lt Col H Kumar, Engrs, 01 Jan 2011 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-55325) Lt Col S Zafar, Engrs, 01 Nov 2011 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-51925) Lt Col R Sharma, Engrs, 01 Jan 2011 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-51926) Lt Col R Kaul, Engrs, 01 Jan 2011 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-51928) Lt Col Sudhir Thakur, Engrs, 01 Jan 2011 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-51947) Lt Col R Thapliyal, Engrs, 01 Jan 2011 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-51957) Lt Col Vivek Singh, Engrs, 01 Jan 2011 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-52034) Lt Col V Verma, Engrs, 01 Jan 2011 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-52055) Lt Col SJ Singh, Engrs, 19 Sep 2011 but seniority wef 01 Jun 2009

(IC-52073) Lt Col Rajesh Karel, Engrs, 01 Jan 2011 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-52104) Lt Col P Satayanarayan, Engrs, 01 Jan 2011 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-53869) Lt Col Jyoti PS, Engrs, 01 Jan 2011 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-53870) Lt Col Srivastava R, Engrs, 01 Jan 2011 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-53884) Lt Col Kunwar VP, Engrs, 30 Jun 2011 but seniority wef 01 Jun 2009

(IC-53894) Lt Col Kanwar AS, Engrs, 01 Jan 2011 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-53895) Lt Col Joshi B, Engrs, 21 Oct 2011 but seniority wef 01 Jun 2009

(IC-53902) Lt Col Mathur VV, Engrs, 01 Jan 2011 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-53904) Lt Col Nagpal S, Engrs, 01 Jan 2011 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-53905) Lt Col Brar JS, Engrs, 11 Nov 2011 but seniority wef 01 Jun 2009

(IC-53911) Lt Col Saha N, Engrs, 01 Jan 2011 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-54871) Lt Col S Chahal, Engrs, 07 Apr 2011 but seniority wef 01 Jun 2009

(IC-52350) Lt Col Jitendra Singh, Engrs, 11 Mar 2011 but seniority wef 01 Jun 2009

(IC-52356) Lt Col V Pathania, Engrs, 18 Mar 2011 but seniority wef 01 Jun 2009

(IC-52358) Lt Col S Pande, Engrs, 22 Mar 2011 but seniority wef 01 Jun 2009

(IC-52398) Lt Col J Singh, Engrs, 13 Apr 2011 but seniority wef 01 Jun 2009

(IC-52426) Lt Col GS Karki, Engrs, 11 Mar 2011 but seniority wef 01 Jun 2009

(IC-52449) Lt Col A Verma, Engrs, 24 May 2011 but seniority wef 01 Jun 2009

(IC-52483) Lt Col KM Agarwal, Engrs, 15 May 2011 but seniority wef 01 Jun 2009

(IC-52490) Lt Col R Trivedi, Engrs, 07 Apr 2011 but seniority wef 01 Jun 2009

(IC-52524) Lt Col G Singh, Engrs, 11 Mar 2011 but seniority wef 01 Jun 2009

(IC-52547) Lt Col R Singh, Engrs, 19 Jun 2011 but seniority wef 01 Jun 2009

(IC-52655) Lt Col RNK Ballaney, Engrs, 01 Apr 2011 but seniority wef 01 Jun 2009

(IC-54241) Lt Col S Sharma, Engrs, 29 Jun 2011 but seniority wef 01 Jun 2009

(IC-54243) Lt Col Pradeep KR TR, Engrs, 06 Mar 2011 but seniority wef 01 Jun 2009

(IC-54248) Lt Col Tejpal Singh, Engrs, 14 Jun 2011 but seniority wef 01 Jun 2009

(IC-54252) Lt Col PH Reddy, Engrs, 14 Jun 2011 but seniority wef 01 Jun 2009

(IC-54260) Lt Col N Ahlawat, Engrs, 04 Mar 2011 but seniority wef 01 Jun 2009

(IC-54268) Lt Col P Mishra, Engrs, 11 Jun 2011 but seniority wef 01 Jun 2009

(SL-04300) Lt Col Arun KR Dey, SL (APTC), 01 Feb 2011 but seniority wef 10 Jan 2008

(IC-50172) Lt Col A Saksena, Sigs, 01 Mar 2011 but seniority wef 01 May 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-53871) Lt Col Sharma R, Sigs, 01 Jan 2011 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-53908) Lt Col Batra KS, Sigs, 01 Jan 2011 but seniority wef 01 Jun 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-49838) Lt Col Joyraj Singh, AEC, 28 Sep 2011 but seniority wef 01 May 2009

(IC-49864) Lt Col SA Varadan, AEC, 14 Feb 2011 but seniority wef 01 May 2009

(IC-50665) Lt Col Vijay Kumar, AEC, 14 Feb 2011 but seniority wef 01 May 2009

(IC-50682) Lt Col R Putarjunam, AEC, 29 Aug 2011 but seniority wef 01 May 2009

(SL-04011) Lt Col RS Yadav, SL(TOT), 01 Feb 2011 but seniority wef 01 May 2009

(IC-46873) Lt Col BS Goraya, ASC, 28 Feb 2011 but seniority wef 01 May 2009

(IC-46929) Lt Col D Sandeep, ASC, 20 Mar 2011 but seniority wef 01 May 2009

(IC-54671) Lt Col Sandeep Bhatia, ASC, 07 Mar 2011 but seniority wef 01 May 2009

(IC-46395) Lt Col Sandeep Kumar, JAG, 01 Feb 2011 but seniority wef 01 May 2009, subs date as per insitu promotion

(SL-03750) Lt Col Piara Lal Choudhary, SL (RO), 27 Jul 2011 but seniority wef 10 Jan 2008

(IC-51662) Lt Col RR Yadav, AOC, 01 May 2011 but seniority wef 01 May 2009

(SL-03898) Lt Col RP Singh, SL (QM), 01 Mar 2011 but seniority wef 10 Jan 2009

(IC-53101) Lt Col AJ Nareshbhai, EME 01 Jan 2011 but seniority wef 01 May 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-51591) Lt Col G Singhal, EME, 01 Jan 2011 but seniority wef 01 May 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-53113) Lt Col Suresh S, EME, 01 Jan 2011 but seniority wef 01 May 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-52305) Lt Col S Kapila, EME, 01 Jan 2011 but seniority wef 01 May 2009, subs date as per insitu promotion

(IC-50288) Lt Col S Kumar, EME, 12 Sep 2011 but seniority wef 01 May 2009

TK DAS
Dy Dir
MS-8A

No. 363, dated 21st August 2012—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

(IC-52773) Lelit Saigal, Arty, 17 Oct 2011

(IC-53568) Prawin Kumar Ganapathrao Nimbalkar, AC, 17 Oct 2011

(IC-55275) Jeetendra Thapa, ASC, 17 Oct 2011

(IC-55741) Randhir Kumar Dwivedi, Int, 17 Oct 2011

(IC-55862) Dileep Reddy Katangure, EME, 17 Oct 2011

(IC-55900) Amit Vikram Singh, AEC, 17 Oct 2011

(IC-55948) Manish Sudhakar Deore, EME, 17 Oct 2011

(IC-56007) I Chubasashi, Inf, 07 Nov 2011

(IC-56790) Sunil Kumar, Inf, 17 Oct 2011

(IC-56794) Harinder Singh, AOC, 17 Oct 2011

(IC-56805) Siddhartha Upadhyay, AOC, 17 Oct 2011

(IC-57221) Sangram Singh, Arty, 17 Oct 2011

(IC-57277) Satvendra Nath Rai, AC, 17 Oct 2011

(IC-57300) Lakshmikanth Suresh, Engrs, 07 Jun 2010

(IC-57391) Kanwal Singh, AVN, 06 Dec 2010

(IC-57532) Amit Shukla, AOC, 17 Oct 2011

(IC-57573) Arun Dahiya, Engrs, 17 Oct 2011

(IC-57695) Rajesh Babu Mantena, AVN, 06 Dec 2010

(IC-57728) Vijay Singh Yadav, AVN, 13 Jun 2011

(IC-57877) Anish Kishore, AVN, 13 Jun 2011

(IC-57904) M Das, EME, 17 Oct 2011

(IC-58583) Syed Faraz Zaidi, EME, 17 Oct 2011

(IC-59563) Udayan Basu, Engrs, 17 Oct 2011

(IC-60049) Manhas Sandeep Kumar, Sigs, 17 Oct 2011

(SC-00047) Abdul Majeed AM, Arty

(SC-00060) Srinivasan Ganapathi, Sigs

(SC-00073) R Srinivasan, AD Arty

(SC-00077) Harwinder Singh, Arty

(SC-00116) Suba Singh, Engrs

(SC-00121) Veeram Singh, Arty

(SC-00151) Ram Kishan Parmar, Inf

(SL-04561) Satish Sharma, Engrs

(SL-05079) Ram Kumar Ram, EMAE(AE)

(SL-05090) Arvind Kumar, QM

(WS-00428) Joshi Vallari Anna, EME

—17 Oct 2011

(SS-38573) Yudhvir Sisodia, EME

—06 Nov 2011

(IC-58132) Jaideep Agarkar, Sigs

(IC-58133) Alok Mishra, ADA

(IC-58134) Piyush Baberwal, AC

(IC-58135) Yogesh Singh Chauhan, M/Inf

(IC-58136) Rajiv Bhargav, AC

(IC-58137) Sachin Sharma, ADA

(IC-58138) Rajdeep Singh Chouhan, AC

(IC-58139) Sumeet Sewal, AC

(IC-58140) Atul Bahuguna, M/Ing

(IC-58141) Ashish Raisinghani, Engrs

(IC-58142) Iesanto K, AC

(IC-58143) Sukhcain Singh, EME

(IC-58145) Vishal Sharma, Inf

(IC-58146) Saminder Mor, Arty

(IC-58147) Sandeep Sirohi, Inf

(IC-58148) Rajesh Venugopal, EME

(IC-58149) Chandrashekhar Vasant Ingawale, EME

(IC-58150) Mandeep Singh Kahlon, Inf

(IC-58152) Gurdev Singh, AOC

(IC-58153) Shailender Singh Arya, Arty

(IC-58155) Rajesh Kumar, Inf

(IC-58156) G Sunil Kumar, Engrs

(IC-58157) Harbir Singh, Arty

(IC-58159) Sanjay V Kulkarni, Inf

(IC-58160) Santosh Yashwant Mahadik, Inf

(IC-58161) Devashish Khattri, ASC

(IC-58162) Deepak Kumar, Sigs

(IC-58163) Rajendra Singh, EME

(IC-58164) Kunal Sharma, Inf

(IC-58165) Manish Sehgal, Inf

(IC-58166) Gagandeep Singh, Inf

(IC-58167) Murali Mahalingam, AC

(IC-58168) Ghan Shyam Pandey, ASC

(IC-58169) Mohit Sharma, Arty

(IC-58170) Madhu Unikrishnan Nair, Engrs

(IC-58171) Tejender Choudhary, Arty

(IC-58172) Manik Batalvi, Engrs

(IC-58173) Mohd Amjad Khan, Arty

(IC-58174) Ajit Pal Singh Dhanda, AC

(IC-58176) Srikanth K Krishna, Sigs

(IC-58177) Mayank Shukla, Inf

(IC-58179) Gagan Anand, Inf

(IC-58180) Giridhar Dhandiram Kole, Inf

(IC-58181) Soumya Sinha, Inf

(IC-58182) Dinker Segal, ASC

(IC-58183) Ashok Arya, Inf

(IC-58184) Gurung Un Bhahadur, Inf

(IC-58185) Vivek Pandey, Engrs

(IC-58186) Shamsher Singh, Inf

(IC-58187) Neeraj Kumar Singh, Engrs

(IC-58188) Mohit Mamgain, ASC

(IC-58189) C Pradeep Reddy, ASC

(IC-58191) Vikram Dahiya, EME

(IC-58192) Satre Harshvardhan, Arty

(IC-58193) Amit Dua, Sigs

(IC-58194) Gagan Deep Katyal, Engrs

(IC-58196) Anil Dahiya, Arty

(IC-58197) Harish Sharma, Inf

(IC-58198) Faraz Iqbal, Sigs

(IC-58199) Sundeep Khatri, EME

(IC-58201) Pradeep Balhara, Inf

(IC-58203) Anil Kumar Gulia, ASC

(IC-58204) Shreesh Bahuguna, EME

(IC-58205) Lokesh Kumar Wale, ADA

(IC-58206) Prashant Dixit, M/Inf

(IC-58207) Bonam Srinivasa Rao, Arty

(IC-58208) Satinder Bir Singh, ASC

(IC-58209) Santosh Maruti Ethap, Sigs

(IC-58210) Gurpratap Singh, Inf

(IC-58211) Amit Goyal, ASC

(IC-58212) Gaurav Bhandari, EME

(IC-58213) Rutuparna Bhorkar, Engrs

(IC-58214) Sanjay Rao Patnagarao Patil, Inf

(IC-58215) Ranjit Jha, Inf

(IC-58216) Manoharan T, AOC

(IC-58217) Bhopinder Singh Saggi, AOC	(IC-58259) S Deepak, Engrs
(IC-58218) Hitesh Kochhar, ADA	(IC-58260) Varun Kumar, Arty
(IC-58219) Arjan Singh Bedi, Inf	(IC-58261) Vikas Bhatia, AOC
(IC-58220) Pushpendra Jhinkwan, Inf	(IC-58262) Harmanjeet Singh, EME
(IC-58221) Sangram Keshari Patnaik, ADA	(IC-58263) Gagandeep Arora, EME
(IC-58222) Himesh Kumar, Inf	(IC-58265) Aditya Sharma, AOC
(IC-58223) Saket Lal, Arty	(IC-58266) K Sandeep Kumar, Inf
(IC-58224) Prithvi Raj Singh Rawat, Inf	(IC-58267) Himanshu Bhatnagar, Arty
(IC-58225) Udayan Acharjya, Sigs	(IC-58268) P Shanker Swaroop, Arty
(IC-58226) Vineet Tyagi, Inf	(IC-58269) Sandeep Singh Gusain, Sigs
(IC-58227) Rakesh Nair, AOC	(IC-58270) M Balagopal, AC
(IC-58228) Amit Mehra, ASC	(IC-58271) Rajdeep Dutta, Arty
(IC-58229) Runit Kanwar Ahluwalia, ADA	(IC-58272) Sameer Sharma, Arty
(IC-58230) Ajai Raj, Inf	(IC-58273) Aju O Mangaly, Arty
(IC-58231) Sameer Arora, Engrs	(IC-58274) Devi Singh Chauhan, Inf
(IC-58232) Braj Bhushan Mishra, Arty	(IC-58276) Gaurav Vikram Singh Chhonker, Arty
(IC-58233) Mriganka Paul, EME	(IC-58277) Ankur Sharma, ASC
(IC-58234) Aman Inder Brar, Arty	(IC-58279) Ashish Kumar Sharma, EME
(IC-58235) Rajagopal S, EME	(IC-58280) Sanjay Singh Rana, ADA
(IC-58236) Himanshu Kalia, ASC	(IC-58281) Satyaranjan Panda, Sigs
(IC-58237) Manish Singh, M/Inf	(IC-58282) Pakesh Kumar Mishra, Inf
(IC-58238) Manish Karki, Inf	(IC-58284) Subrato Chakravarti, Inf
(IC-58240) Brijesh, EME	(IC-58285) Akash Pramod Patil, Inf
(IC-58241) Shankar Deyal Singh, Arty	(IC-58286) Saminder Singh, M/Inf
(IC-58242) Rahul Ranjan, Engrs	(IC-58288) Gaurav Sharma, Sigs
(IC-58244) Sachin Shivraj Randale, Arty	(IC-58289) Suresh Kumar Dhaka, Inf
(IC-58245) Arun Venugopal, Engrs	(IC-58290) Vittal Rao Eda, M/Inf
(IC-58246) Badine Kshitish Prakash, Arty	(IC-58291) K Arun, Inf
(IC-58247) Tarun Vohra, Arty	(IC-58292) Dhruv Kumar Gupta, ASC
(IC-58248) Abhijeet Thakre, Inf	(IC-58293) Sandeep Khokher, Engrs
(IC-58249) Gurinder Pal Singh, Inf	(IC-58295) Saurabh Chauhan, Inf
(IC-58250) Rohit Thakur, Inf	(IC-58296) Kumar Ranvijay, Inf
(IC-58251) Tushar Vig, Engrs	(IC-58297) Rajeev Ranjan, Arty
(IC-58252) Rajamani Vinayak, Inf	(IC-58298) Laleet Kumar Mohanty, Arty
(IC-58253) Manish Raj, AVN	(IC-58299) Rajneesh Wadhwa, EME
(IC-58255) Suraj Bhanwar Rathore, AOC	(IC-58300) Kapil Bassi Sema, Engrs
(IC-58256) Vikash Gulia, Engrs	(IC-58301) Arun Pratap Singh Bhadoria, Inf
(IC-58257) Sarjeet Singh, Inf	(IC-58302) Saurabh Nautiyal, Arty
(IC-58258) Nikhil Sharma, ADA	(IC-58303) Shonu, Inf

- (IC-58304) Aditya Vikram Singh, Inf
(IC-58305) Mahendra Pal Singh Mourya, Inf
(IC-58306) Sanjeev Kumar, AC
(IC-58307) Sai Kiran Sylada, ADA
(IC-58308) Kanwardeep Singh Sidhu, ADA
(IC-58309) Vikas Grewal, Inf
(IC-58310) Manoram Yadav, Inf
(IC-58311) Tariq Khan, EME
(IC-58312) Suresh Dhull, AOC
(IC-58314) Sandeep Kumar Tiwari, Inf
(IC-58315) Vibhor Sharma, Sigs
(IC-58316) Pradeep Goswami, Engrs
(IC-58317) Rajeev Ranjan, EME
(IC-58318) Sunil Tukaram Chikkorde, Arty
(IC-58319) Arvinder Singh, ASC
(IC-58320) Neeraj Dube, ASC
(IC-58321) Ananda Rao Magupalli, Inf
(IC-58322) Samudra Vijay Sarma, ADA
(IC-58323) Vishwas Bahukhandi, Inf
(IC-58324) Bharat Singh Rawat, AC
(IC-58325) Manav Kumar Sharma, AOC
(IC-58326) Alok Dhar, Engrs
(IC-58327) V Sasi Kumar, AOC
(IC-58328) Shailesh Kumar, M/Inf
(IC-58329) Ranjan Prabhu, Arty
(IC-58331) Brij Bhushan Singh Pundir, ADA
(IC-58332) Prashant Malik, Sigs
(IC-58333) Ravichandran TN, AC
(IC-58334) Suraj Narayan Mishra, EME
(IC-58335) Anurag Mishra, Inf
(IC-58336) Ranbir Singh, Inf
(IC-58337) Prashant Gopalkrishnan Nair, Arty
(IC-58338) Amarjit Singh Malik, Inf
(IC-58339) Vishal Sharma, Asc
(IC-58340) Rajeev Choudhary, Inf
(IC-58341) Srinivas MN, Engrs
(IC-58342) Diwakar Singh Jamwal, Sigs
(IC-58343) Piyush Chakravarti, AOC
(IC-58345) P Sumod, EME
(IC-58346) Sachin Bhajekar, Engrs
(IC-58348) Gajanan Sudhir Uumbranikar, Arty
(IC-58349) Rajat Mohan, Arty
(IC-58350) Shamsher Singh, EME
(IC-58351) Naval Kishore Sharma, ASC
(IC-58352) Aveek Dey, EME
(IC-58353) Abhay Pant, Engrs
(IC-58354) Mantha Swathi Kumar, Inf
(IC-58355) Sreekumar RK, ASC
(IC-58356) Vijay Raj Singh Katwal, Engrs
(IC-58357) Akhilesh Tomar, Inf
(IC-58358) Chetan Chauhan, ASC
(IC-58359) Manmeet Singh, ADA
(IC-58360) Prayog Subba, Inf
(IC-58361) Vikram Devgan, ADA
(IC-58362) Narinder Kumar Sharma, Engrs
(IC-58363) Prati Bimb, AVN
(IC-58364) Vikram S Thakur, Inf
(IC-58365) Aditya Pratap Singh Chauhan, EME
(IC-58366) Harpreet Singh, Inf
(IC-58368) Gautam Kumar Chouhan, Arty
(IC-58369) Vishal Singh Bais, Inf
(IC-58370) Tarun Sati, Inf
(IC-58371) Haoham Romesh Singh, Inf
(IC-58372) Thomas CI, Sigs
(IC-58373) Vijay Singh Yadav, Arty
(IC-58374) Arijit Mitra, AVN
(IC-58375) Rajpal Singh Rawat, AOC
(IC-58376) Kanwar Yudheshwar Singh, AC
(IC-58377) Sudeep Grover, Engrs
(IC-58378) Shiv Kamal Sinha, EME
(IC-58379) Mukul Chadha, M/Inf
(IC-58380) Romit Barthwal, EME
(IC-58381) Manoj Kumar Singh, Engrs
(IC-58382) Pravin Motiramji Ganorkar, Arty
(IC-58383) Swapnadeep Bhattacharya, ASC
(IC-58384) Omesh Shukla, EME
(IC-58385) Amit Bali, Inf
(IC-58386) Gautam Roy, Inf

(IC-58387) PP Pramod, AC	(IC-58430) Amit Soni, Inf
(IC-58388) Laxman Tiwari, M/Inf	(IC-58431) Shailendra Kumar Gupta, Arty
(IC-58389) Manish Shukla, AOC	(IC-58432) Sumeet Dua, Inf
(IC-58390) Ashish Shukla, Arty	(IC-58433) Tanvir Singh Mann, Inf
(IC-58391) Ravinder Kingra, Inf	(IC-58434) Santhosh Vincent, Inf
(IC-58392) Sidharth Tomar, Arty	(IC-58436) Nandula Sunil, Arty
(IC-58394) Dharendra Singh, Inf	(IC-58437) Ashish Chandra, Inf
(IC-58395) Somesh Gupta, ADA	(IC-58438) Chaturvedi Dhiraj Mahesh, ADA
(IC-58397) Baljinder Singh Uppal, Inf	(IC-58439) Harshvinder Pal Singh, Sigs
(IC-58398) Suhas Sharad Raut, Inf	(IC-58440) Mohit Singh, Arty
(IC-58399) Amit Srivastava, Sigs	(IC-58441) Sunil Kumar Prashar, Arty
(IC-58400) Tej Karam Singh Sekhon, Inf	(IC-58442) Rupam Chatterjee, Engrs
(IC-58401) Shubir Kumar Chakravarty, Sigs	(IC-58443) Yusuf Saify, Inf
(IC-58402) Paramjit Singh, Sigs	(IC-58444) Santosh Bhardwaj, ASC
(IC-58403) Chathoth Binu Bharathan, Inf	(IC-58445) K Brijesh Katoch, Int
(IC-58404) Rajneesh Iyer, Arty	(IC-58446) Kamlesh Kumar Tiwari, Engrs
(IC-58405) Sukesh Verma, AC	(IC-58447) Sunil Mudgal, AOC
(IC-58406) Santosh Kumar, AOC	(IC-58448) Ajay Singh Tyagi, Arty
(IC-58407) Nand Bhajekar, Inf	(IC-58449) Vishal Ahlawat, EME
(IC-58408) Ajay Nishikant, Engrs	(IC-58450) Avinesh Pal Singh, ADA
(IC-58409) Sandeep Mishra, ADA	(IC-58451) Neeraj, Inf
(IC-58410) Mayank Pathania, Inf	(IC-58452) Anil Verma, M/Inf
(IC-58411) Kedar Bhimaro Kadam, EME	(IC-58453) Kushal Singh, Inf
(IC-58412) Kamal Mehta, AOC	(IC-58454) Sunit Sharma, Inf
(IC-58413) Jogender Nath Sharma, Sigs	(IC-58455) Gaurav Dutt, Arty
(IC-58415) Akshay Kalia, Arty	(IC-58456) Kapil Mehta, EME
(IC-58416) Chittaranjan Rautela, Engrs	(IC-58457) Jaswendra Singh Bargoti, Engrs
(IC-58417) Navneet Singh, Arty	(IC-58458) Rishi Bhardwaj, M/Inf
(IC-58418) Rammohan Narayan Swamy, AC	(IC-58459) C Muthu Ganesh, Sigs
(IC-58419) Dharamveer Singh, Inf	(IC-58461) Sachin Duseja, Inf
(IC-58420) Praveen Tomar, ASC	(IC-58462) Shineesh Mukundan, Inf
(IC-58421) Ranjeet Tuknait, ASC	(IC-58463) Prabhansh Chandra Mishra, EME
(IC-58422) Prakash Nair, ASC	(IC-58464) Subir Sondhi, Inf
(IC-58423) Nitin Sachdeva, ASC	(IC-58465) Vishnu Tiwari, AC
(IC-58424) Sukhbir Aujla, Sigs	(IC-58466) Kulwant Singh Kuhad, Inf
(IC-58425) Gupta Manish, Arty	(IC-58467) Kuldeep Singh, Arty
(IC-58426) Navneet Kumar, EME	(IC-58468) Anjani Kumar, Inf
(IC-58427) Kaushik Ray, Arty	(IC-58469) Chandan Singh Bangari, ASC
(IC-58428) Selvam K, Engrs	(IC-58470) Vineet Sharawat, AC
(IC-58429) Rajesh Kumar Singh, Inf	

(IC-58471) SVS Sudarsan, Sigs	(IC-58515) Anshu Bhandari, Arty
(IC-58472) C Rajashekar, Engrs	(IC-58517) Sunil Dagar, Inf
(IC-58473) Sunil Dutta, EME	(IC-58518) Nishant Bariar, Inf
(IC-58476) Arun Kumar Shukla, EME	(IC-58519) Sanjeev Shiva, Sigs
(IC-58477) Pradeep Singh Pathania, Inf	(IC-58520) Rakesh Kumar Sehrawat, Inf
(IC-58478) Samit Kumar, ADA	(IC-58521) Ravinder Pal Singh, Sigs
(IC-58480) Abhishek Pokhriyal, Engrs	(IC-58523) Mukul Chauhan, Inf
(IC-58481) Harsh Kumar Sachdeva, Inf	(IC-58525) Vikrant Tyagi, Engrs
(IC-58482) Vikram Singh Sankhla, Inf	(IC-58526) Lalit Narayan Mahapatra, Arty
(IC-58483) Bharat J Joshi, Engrs	(IC-58528) Chandra Shekhar Pandey, Inf
(IC-58484) Dinesh Singh Mankotia, Arty	(IC-58529) Bharath Kollipara, AOC
(IC-58485) Deepak Singh Samant, Inf	(IC-58530) Siddhartha Shanker Singh, ASC
(IC-58486) Saurabh Shukla, ASC	(IC-58531) Soumitra Kumar Pattnaik, ADA
(IC-58487) Vikram Paneri, AC	(IC-58532) Nalin Kumar Gupta, ASC
(IC-58488) Amit Bhola, Arty	(IC-58534) Sunil Kumar P, ADA
(IC-58489) Jasvinder Pal, Arty	(IC-58535) Anshuman Chauhan, AC
(IC-58491) Rishi Krishna, Arty	(IC-58537) Nirbhaya Sharma, Sigs
(IC-58493) Virender Singh, Arty	(IC-58538) Vinit Kumar Tiwari, Engrs
(IC-58494) Narendra Kumar Singh, Inf	(IC-58539) Pranay Raj, EME
(IC-58495) Pradipta Dutta, ADA	(IC-58540) Sanjay Kumar Pattanaik, Inf
(IC-58496) Rohit Patel, Sigs	(IC-58541) Vishal Dutta, Inf
(IC-58497) Devashish Singh, M/Inf	(IC-58542) Nitesh Kumar, Inf
(IC-58498) Apollo Ghosh, EME	(IC-58543) Bikram Jit Singh, AC
(IC-58499) Pradeep Thapa, Inf	(IC-58545) Amit Kumar, Inf
(IC-58500) Ankur Bhatnagar, ASC	(IC-58546) Sagar Singh, Arty
(IC-58501) Pankaj Bisht, EME	(IC-58547) Sonal Chandra, Engrs
(IC-58502) Ved Pal Singh Patyal, EME	(IC-58548) Sanyam Kashyap, Arty
(IC-58503) Rajesh Singh, Engrs	(IC-58549) Rishi Raj Bhati, Arty
(IC-58504) Ravi Shekhar Sinha, Engrs	(IC-58551) Niraj Kumar, AOC
(IC-58505) Shyamanooj Das, ASC	(IC-58552) Avneesh Singh, Arty
(IC-58506) Srikkant, EME	(IC-58553) Pradeep Kumar, Inf
(IC-58507) Sandeep Mohapatra, ADA	(IC-58554) Rajvinder Singh, M/Inf
(IC-58508) Vikas Trivedi, AC	(IC-58555) Sushil Chanda Pandey, Engrs
(IC-58509) Satyesh Yadav, AOC	(IC-58557) Rohit Saini, Sigs
(IC-58510) Rajeev Nayan, Inf	(IC-58558) Atul Kant, EME
(IC-58511) Dinesh Chandra Nautiyal, Arty	(IC-58559) Anil Kumar Singh Rathore, ASC
(IC-58512) Barawkar Vikram Bhaskarao, Inf	(IC-58565) Jagjit Baswana, MF
(IC-58513) Vivek Bhardwaj, Arty	
(IC-58514) Vishal Sharma, M/Inf	

—12 Dec 2011

(IC-61162) Ajay Kumar, Engrs

(IC-61163) Karamvir Singh Gill, Engrs
 (IC-61164) Satpal Singh, Sigs
 (IC-61165) Sanjay Pillai, Sigs
 (IC-61166) Singh Yogwardham Brahma Kumar, Engrs
 (IC-61167) Amit Pradip Shukla, Sigs
 (IC-61168) R Srikanth Bhargava, EME
 (IC-61169) Vinay Singh Shekhawat, Engrs
 (IC-61170) Harpreet Singh Sikka, EME
 (IC-61171) Koshlendra Bahadur Singh, EME
 (IC-61172) Shailesh Bansal, Engrs
 (IC-61173) Uday Thorat, EME
 (IC-61174) Anup Gusain, Sigs
 (IC-61175) Akshay Baloria, EME
 (IC-61177) Veeresh Sharma, Engrs
 (IC-61179) Rajesh Ramkrishna Upadhya, Sigs
 (IC-61180) Deepak Palande, Engrs
 (IC-61181) Shashi Shrimai, Sigs
 (IC-61182) Sarad Prasad Raut, EME
 (IC-61183) Davinder Singh Jaswal, EME
 (IC-61184) Sumesh Sharma, EME
 (IC-61185) Ashwani Kumar Shrivastav, EME
 (IC-61186) B Satyanarayan, EME
 (IC-61187) Agnivesh Pandey, Sigs
 (IC-61188) Sushant Kumar Mishra, EME
 (IC-61190) Amit Gaur, Sigs
 (IC-61191) Jyoti Kumar, Engrs
 (IC-61192) Vaibhav Trivedi, EME
 (IC-61193) Amit Tandon, Engrs
 (IC-61194) Bhagwan Prakash Dwivedi, EME
 (IC-61195) Som Raj Tripathi, Sigs
 (IC-61196) Gautam Sood, EME
 (IC-61197) Vishal Singh, Engrs
 (IC-61198) Bhanu Pratap Chand, Sigs
 (IC-61199) Kuldeep Singh, EME
 (IC-61200) KS Rajasekhar Reddy, Engrs
 (IC-61201) Gaurav Pathak, Sigs
 (IC-61202) Chanam Gyananda Singh, Engrs
 (IC-61203) Virender Kang, Sigs
 (IC-61204) Gagandeep Singh Bhatia, Engrs

(IC-61205) Bipneet Singh Cheema, Sigs
 (IC-61207) Plaban Gogoi, Engrs
 (IC-61208) Kapil Yadav, EME
 (IC-61209) Sawan Taluja, Engrs
 (IC-61210) Pankaj Garg, EME
 (IC-61211) Shah Anand Natvarlal, EME
 (IC-61212) Indraneel Ghosh, EME
 (IC-61214) Arunsekhar C, Engrs
 (IC-61215) Anurag Saxena, EME
 (IC-61217) Ramandeep Singh, EME
 (IC-61218) Asim Vincent Niral Surin, Sigs
 (IC-61219) Shridhar S Nerali, EME

—13 Dec 2011

(IC-55902) Sudhir Kumar, AD Arty, 05 May 2011
 (IC-56697) PV Ramesh Babu, AD Arty, 07 Dec 2011
 (IC-60042) Amit Atri, Engrs, 14 Jun 2011
 (IC-60045) Amlan Borah, Engrs, 14 Jun 2011
 Pers. No., Name and Arms
 (SC-00038) Dalwinder Singh, AOC
 (SC-00039) Paturi V Narayana Reddy, EME
 (SC-00149) Duggirala Srinivasa Rao, AOC

—12 Sep 2011

SHORT SERVICE COMMISSION

Lt to be Capt

(SS-44999) Anand Kumar Tiwari, Engrs, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011
 (SS-45000) Pratyashi Priyadarshi Mohanty, Mech, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011
 (SS-45001) Jacob Koshy, EME, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011
 (SS-45002) Vasu Gupta, Inf, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011
 (SS-45003) Angad Pal Ruprah, Sigs, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011
 (SS-45008) Abhinav Sood, AOC, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011
 (SS-45012) Jagdish Singh Kaira, Sigs, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45013) Sarabjeet Singh Tieth, EME, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45014) Kuldeep Singh Shivrain, AC, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45015) Barde Hrishikesh Arun, Engrs, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45016) Siddhartha Gurung, EME, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45017) Tushar Sharma, Sigs, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45018) Rajiv Malik, Sigs, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45019) Narinder Singh, EME, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45020) Anshul Kumar, Inf, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45022) Deepak Kumar G, AAD, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45023) Prateek Malhotra, EME, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45025) Suresh, Sigs, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45026) Gunmeet Singh Gujral, Arty, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45028) Ankush Vashisht, Arty, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45029) Virender Singh Tanwar, Engrs, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45030) Pankaj Lohach, AAD, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45031) Mandeep Singh Bhatia, Sigs, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45032) Ajay Kumar, Engrs, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45034) Sarthak Pandey, Arty, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45037) Antriksh Mahajan, AAD, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45039) Purushottam Kumar, AC, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45043) Ajay Kumar Gupta, EME, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45045) Kamminlun Guite, Engrs, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45046) Aritra Ghanti, Engrs, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45047) Pradeep Kumar Thakur, Arty, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45048) Rishabh Agnihotri, Engrs, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45050) Nihar Upadhyay, EME, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45053) Sushant Satyam, Arty, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45054) Mahender Godara, Inf, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45055) Sumit Vashistha, Inf, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45058) Abhinav Sharma, AAD, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45060) Mahesh Bhanot, EME, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45061) Mikhail, EME, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45065) Ajay Kumar Pal, ASC, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45068) Deepansh Kapoor, Sigs, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45069) D Souza Cliff Franco, Inf, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45071) Abhishek G C, EME, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45072) Ravi Kant Singh, EME, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45077) Rohit Kumar Tiwari, EME, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45079) Narendra Singh Negi, Sigs, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45080) Ravikant Ranout, Engrs, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45081) Manish Kumar Singh, Inf, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45082) Karthick R, AC, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45083) Adrian Michael Dsouza, Sigs, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45085) Sourabh Kumar, Sigs, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45089) Deepak Nautiyal, Engrs, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45090) Varun Duggal, AOC, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45092) Aditya Vikram Singh, Arty, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45093) Rajiv Sharma, Mech, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45094) Avnish Bhattacharya, Inf, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45096) Nirmesh Dahiya, EME, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45098) Rashid Bin Ismail, Engrs, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45107) Piyush Mittal, Inf, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45109) M O Rajesh, Sigs, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45110) Pavanjeet Saluja, EME, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45111) Pankaj Jalwal, ASC, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45112) Varun K Augustine, ASC, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45113) Samir Bhanti, Sigs, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45115) Subrata Dey, Arty, 20 Sep 2009, SSC-35(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

SHORT SERVICE COMMISSION (SSCW)

Lt to be Capt

(SS-44997) Prerna Chouhan, Sigs, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-44998) Sreeshma Suresh O S, Sigs, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45005) Divya Aggarwal, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45006) Divya Sharma, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45007) Nivedita Nandal, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45009) Preetha Ganguly, Sigs, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45010) Charu Chauhan, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45011) Ruchika Pandey, Sigs, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45021) Thorat Meghna Ajit, Engrs, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45024) Kavita Negi, Sigs, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45027) Pallavi Rawal, Sigs, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45033) Tresa Mary Joseph, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45035) Jaya Motwani, Sigs, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45036) Gunjan Thapliyal, Sigs, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45038) Komal Parihar, Engrs, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45040) Shreya Rawat, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45041) Swati Sharma, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45042) Lalita Bisht, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45044) Suchetana C Ingaleswar, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45049) Anjali Jadon, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45051) Shreya Mishra, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45052) Nemi Pandey, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45056) Swadha Mishra, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45057) Bhavana M V, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45059) Chavan Gouri Kiran, Engrs, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45062) Aparna Kakran, Sigs, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45063) Ekta Singh, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45064) Praveen Kaur, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45066) Shivani Jerath, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45067) Sayed Heena, Sigs, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45070) Reeta, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45073) Kulwinder Kaur, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45074) Ankita Kothari, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45075) Hargun Kaur Anand, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45076) Julie Philip, Engrs, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45078) Priyanka Negi, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45084) Madhvi Sharma, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45087) Sphurti Kulkarni, Engrs, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45088) Swathi M, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45091) Charu Kaushik, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45095) Reema Dhadwal, Sigs, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45097) Devika Sharma, Sigs, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45099) Vaishali Dev, Sigs, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45100) Aparna P Prabhu, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45101) Indu, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45102) Deepa Desai, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45103) Mourya Anuradha Sureshkumar, Sigs, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45104) Preeti Sehwat, Sigs, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45105) Dipti Ranjan, Engrs, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45106) Sandhya, EME, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45108) Paranshu Gosain, Sigs, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

(SS-45114) Iti Shrivastava, Sigs, 20 Sep 2009, SSCW-06(T), 20 Oct 2009, 20 Oct 2011

PRABHAT ROSS

Dy Dir
MS-8C

ARMY BRANCH

No. 364, dated 21st August 2012—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PIONEER CORPS

To be Subs Sub {GD & Clk (SD)}

Nb Sub (GD) Narad Mahton (JC-829454X), 01 Feb 2012

Nb Sub (GD) Parasu Ram Singh (JC-829456H), 02 Apr 2012*

Nb Sub (GD) Christopher Ekka (JC-829457L), 01 Apr 2012

Nb Sub (GD) Satish Kumar (JC-829458N), 01 Apr 2012

Nb Sub (GD) Yogendra Singh (JC-829459W), 04 Apr 2012*

Nb Sub (GD) Ashok Kumar (JC-829460L), 01 Apr 2012

Nb Sub (GD) Mohan Kathat (JC-829461N), 01 Apr 2012

Nb Sub (GD) Achhar Singh (JC-829462W), 01 Apr 2012

Nb Sub (GD) Britch Pal Singh (JC-829463Y), 01 Apr 2012

Nb Sub (GD) Kalu Ram Sharma (JC-829464F), 01 May 2012

Nb Sub Clk (SD) Girand Singh (JC-829455A), 01 Mar 2012

Nb Sub Clk (SD) Anil Kumar (JC-829467P), 01 Mar 2012

Nb Sub Clk (SD) Gautama Tiwari (JC-829472A), 01 Apr 2012

*(Granted seniority wef 01 Apr 2012 without effect on pay & allowances)

T C SHARMA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 365, dated 21st August 2012—The President is pleased to release the undermentioned Short Service Commissioned Officers in accordance with AI 11/S/64, with effect from the date noted against their names. The officers have been transferred to Regular Reserve of Officers (class S) with effect from the dates of their release for a period of 5 years or up to the age of 40 years whichever is earlier :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

(SS-38916Y) SA Risaldar, Arty, 04 Sep 2008

(SS-38928N) Rakesh Mohan Nair, EME, 20 Dec 2008

(SS-38988H) AK Sharma, ASC, 11 May 2008

(SS-39347H) Saurabh Sharma, Inf, 28 May 2008

(SS-39410M) SS Hiremath, Inf, 29 May 2008

(SS-39428H) Inderpaul Singh, Inf, 29 Sep 2008
 (SS-39436F) L Navaneetha Balakrishnan, Inf, 16 Feb 2008
 (SS-39444A) Ashish Acharjee, AC, 24 Sep 2008
 (SS-39453F) Shushil Kumar Kaundal, Inf, 15 Nov 2008
 (SS-39688N) M L Singh, Inf, 24 Aug 2008
 (SS-39698X) Saurabh Vikas, Inf, 18 Aug 2008
 (SS-39792F) Umesh Mehta, Arty, 09 Apr 2008
 (SS-39795P) Karan Singh Bains, Mech Inf, 29 Oct 2008
 (SS-39822N) Ganesh Dutt Gaur, Inf, 25 Aug 2008
 (SS-39858M) Narendra Singh Chandel, Inf, 28 Jun 2008
 (SS-39874K) Jayapraksh S, ASC, 12 May 2008
 (SS-39937F) Dinesh, Inf, 21 Sep 2008
 (SS-39986K) Tushar Johari, Sigs, 28 Nov 2008
 (SS-39996N) Hemant Singh Thakur, Arty, 03 Jun 2008
 (SS-39997W) Shamsher Singh Pannu, Arty, 06 May 2008
 (SS-39999F) Karan Singh Yadav, Inf, 02 Jun 2008
 (SS-40002N) TR Ranjith, Int, 04 Jun 2008
 (SS-40003W) Sandeep Sangwan, AC, 03 Jun 2008
 (SS-40016N) Biswajit Das, Inf, 05 Apr 2008
 (SS-40040K) Kamban Kavi, Arty, 04 Jun 2008
 (SS-40086M) Ismail C, Engrs, 18 May 2008
 (SS-40116Y) J J Dominic, Arty, 14 Oct 2008
 (SS-40124X) AH Pradhan, Arty, 21 May 2008
 (SS-40125A) Uday Kameshwar Shriwas, Sigs, 02 Jun 2008
 (SS-40126H) Anwar H Khan, Inf, 08 Mar 2008
 (SS-40130L) Deepak Chandra Joshi, Inf, 26 May 2008
 (SS-40256L) Jhambre Kalyan Kingston Yesudas, Engrs, 04 Oct 2008
 (SS-40258W) Rishi Mohan, Sigs, 01 Nov 2009
 (SS-40264K) GS Kang, Sigs, 04 Dec 2008

(SS-40286H) Praveen Raj S, Arty, 04 Oct 2008
 (SS-40306L) Patil Sachin Balasaheb, Inf, 04 Oct 2008
 (SS-40308W) Deepak Kumar Yadav, Inf, 04 Oct 2008
 (SS-40318A) R Thiagarajan, Inf, 06 Sep 2008
 (SS-40321A) Anurag Grover, Inf, 02 Dec 2008
 (SS-40330F) Santosh Kumar Sandeep, Arty, 20 Oct 2008
 (SS-40338N) M A Khan, Mech Inf, 19 Oct 2008
 (SS-40374Y) Chetan Chauhan, Inf, 04 Oct 2008
 (SS-40377M) Parag Asthana, Mech Inf, 06 Sep 2008
 (SS-40380M) Sankalp Joshi, Sigs, 02 Dec 2008
 (SS-40398H) Rajneesh Bhardwaj, Inf, 04 Oct 2008
 (SS-40408F) Shiju Thomas, Arty, 04 Oct 2008
 (SS-40429X) Sachin Sharma, Inf, 04 Oct 2008
 (SS-40430M) Amit Pachauri, Inf, 04 Oct 2008
 (SS-40439F) Sanil M Xavier, Arty, 07 Nov 2008
 (SS-40444M) Ashok Menon, Inf, 03 Nov 2008
 (SS-40457K) Deepak Vardhan, Mech Inf, 03 Dec 2008
 (SS-40469Y) Abraham V Chacko, Arty, 03 Dec 2009

JEETENDRA OHRI
 Col
 Col MS-7

ARMY BRANCH CORRIGENDUM

No. 366, dated 22nd August 2012—

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 24 May 2008 under the heading “Regular Army, Permanent Commission”, and sub heading “Capt to be Maj” the following amendment is made :—

For : IC-61548 Anjul Bahuguna, Inf

Read : Blank

PRABHAT ROSS
 Dy Dir
 MS-8C

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
 एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
 PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
 PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012